



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section—3—Sub-section (I)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 56]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 1979/फाल्गुन 10, 1900

No. 56]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1979/PHALGUNA 10, 1900

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

| वित्त मंत्रालय   | (1)   | (2)   | (3)  |
|--|---|---|--|
| (राजस्व विभाग)   |   |   |  |
| अधिसूचनाएं   |   |   |  |
| नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979   |   |   |  |
| केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क   |   |   |  |
| सा० क्र० वि० 107 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व और बीमा विभाग की वे अधिसूचनाएं जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएंगी। |   |   |  |
| सारणी  |   |   |  |
| क्रम सं०   | अधिसूचना सं०                                    | संशोधन  |  |
| और तारीख   |   |   |  |
| (1)  | (2)   | (3)   |  |
| 1.   | 54/59-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मई, 1959 | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (3) में,—                                  | (ख) मंत्र (ii) में, "तीन प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                    |
|  |   | (क) मद (i) में, "छह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे ; |  |
|  |   |   | उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के खंड (ii) में, "5.00" श्रृंखों के स्थान पर, "10.00" श्रृंख रखे जाएंगे।  |
|  |   |   | उक्त अधिसूचना में, "5.00" श्रृंखों के स्थान पर, "10.00" श्रृंख रखे जाएंगे।   |
|  |   |   | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                   |
|  |   |   | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                      |
|  |   |   | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 2 और 3 के सामने स्तम्भ (3) के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" |
|  |   |   | 2. 94/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 मई, 1967   |
|  |   |   | 3. 171/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जुलाई, 1967  |
|  |   |   | 4. 132/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 13 जून, 1968  |
|  |   |   | 5. 70/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मई, 1971  |
|  |   |   | 6. 122/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जून, 1971  |

| (1)   | (2)   | (3)  | (1)  | (2)   | (3)   |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   | घोर "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |  |   | (ख) क्रम सं० 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी ; |
| 7. 160/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 31 जुलाई, 1971   | उक्त अधिसूचना में, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।  |  |  |   | (ग) क्रम सं० 6 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी।  |
| 8. 79/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972    | उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" और "पाँच प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |  | 15. 69/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना में, "5.5 प्रतिशत" शब्दों और शब्दों के स्थान पर, "पाँच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।  |   |
| 9. 53/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1975     | उक्त अधिसूचना में, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "तीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।  |  | 16. 92/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                |   |
| 10. 104/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 30 अप्रैल, 1975 | उक्त अधिसूचना में, "बारह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।  |  | 17. 93/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                |   |
| 11. 141/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 मई, 1975    | उक्त अधिसूचना में, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।  |  | 18. 184/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई, 1976     | उक्त अधिसूचना में, "12.5 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों और शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                    |   |
| 12. 42/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1976   | उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 2 और 3 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रत्येक प्रविष्टि के स्थान पर, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी।                                 |  | 19. 187/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जून, 1976     | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                |   |
| 13. 50/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976  | उक्त अधिसूचना में, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।   |  | 20. 200/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 जून, 1976    | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                |   |
| 14. 68/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976  | उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में, स्तम्भ (3) में,—  |  | 21. 278/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1976 | उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5 प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |   |
|   | (क) क्रम सं० 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर, "पाँच प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;  |  | 22. 71/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1977। | उक्त अधिसूचना में, "12.5 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों और शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                     |   |

| (1)   | (2)  | (3) | (1)  | (2)  | (3) |
|---|--|-----|--|--|-----|
| 23. 158/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—   |     | 30. 329/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 26 नवम्बर, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (3) में,—   |     |
|   | (क) क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;  |     |  | (क) क्रम सं० 1 और 2 के सामने की प्रत्येक प्रविष्टि के स्थान पर, "पन्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;                               |     |
|   | (ख) क्रम सं० 3, क्रम सं० 2 के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी।  |     |  | (ख) क्रम सं० 3 और 4 के सामने की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" और "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |     |
| 24. 158/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 3 और क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार" और "चासी प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |     | 31. 335/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 2 दिसम्बर, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।   |     |
| 25. 159/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना में, "पन्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "तीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।   |     | 32. 15/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 24 जनवरी, 1978।   | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "चासी प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी। |     |
| 26. 160/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, मद (ख) के सामने स्तम्भ (2) में दाने वाले "तीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर "चासी प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                    |     | 33. 56/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 1 मार्च, 1978।    | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                   |     |
| 27. 162/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रत्येक प्रविष्टि के स्थान पर, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" प्रविष्टि रखी जाएगी।   |     | 34. 58/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 1 मार्च, 1978।    | उक्त अधिसूचना में, पांच प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                  |     |
| 28. 163/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना में, "बीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।   |     | 35. 705/36 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सारणी 1 मार्च, 1978।   | उक्त अधिसूचना में, "छह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।  |     |
| 29. 165/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 18 जून, 1977। | उक्त अधिसूचना में, "साढ़े बारह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।   |     | 36. 107/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सारणी 27 अप्रैल, 1978। | उक्त अधिसूचना में, "दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर, "पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे।                                   |     |

[सं० 25/79/मि सं० 344/1/79 टोप्राख्य]

लज्जा राम, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st March, 1979

## CENTRAL EXCISES

**G. S. R. 107 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of revenue and Insurance or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| S. No. | Notification No. and date                          | Amendment  |
|--------|--|--|
| (1)    | (2)  | (3)  |
| 1.     | 54/59-Central Excises, dated the 16th May, 1959.   | In the Table annexed to the said notification, in column (3) against Sl. No. 1—<br><br>(a) in item (i), for the words, "Six per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "Ten per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted ;<br><br>(b) in item (ii), for the words, "three per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "Five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted. |
| 2.     | 94/67-Central Excises, dated the 26th May, 1967.   | In the said notification, in clause (ii) of the proviso, for the figures "5.00", the figures "10.00" shall be substituted.   |
| 3.     | 171/67-Central Excises, dated the 24th July, 1967. | In the said notification figures "5.00", the figures "10.00" shall be substituted.   |
| 4.     | 132/68-Central Excises, dated the 13th June, 1968. | In the said notification, for the words "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ", the words "twenty-five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |

| (1) | (2)   | (3)  |
|-----|---|--|
| 5.  | 70/71-Central Excises, dated the 29th May 1971.     | In the said notification, for the words "twenty-four per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "thirty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |
| 6.  | 122/71-Central Excises, dated the 1st June, 1971.   | In the Table annexed to the said notification, for the entries under column (3) against S. Nos. 2 and 3, the entries "Fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ." and "Twenty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall, respectively, be substituted. |
| 7.  | 160/71-Central Excises, dated the 31st July, 1971.  | In the said notification, for the words "ten per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |
| 8.  | 79/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.  | In the Table annexed to the said notification, for the entries in column (4) against S. Nos. 1 and 2, the entries "Ten per cent. <i>ad valorem</i> ." and "Five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall, respectively, be substituted.          |
| 9.  | 53/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.   | In the said notification, for the words "twenty-five per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "thirty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |
| 10. | 104/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975. | In the said notification, for the words "twelve per cent. <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |
| 11. | 141/75-Central Excises, dated the 23rd May, 1975.   | In the said notification, for the words "ten percent. <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |
| 12. | 42/76-Central Excises, dated the 1st March, 1976.   | In the Table annexed to the said notification, for each of the entries in column (3) against S. Nos. 2 and 3, the entry "10 per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |

| (1)                         | (2)  | (3)  | (1)                            | (2)   | (3)  |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| 13. 50/76-Central Excise,   | In the said notification, for the                            | words "fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ," the words "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.           | 20. 200/76-Central Excises     | In the said notification, for the   | words "twenty per cent <i>ad valorem</i> ," the words "twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted. |
| dated the 16th March, 1976. |  |  | dated the 17th June, 1976.     |   |  |
| 14. 68/76-Central Excises,  | In the Table annexed to the said notification, in column 3,— | (a) for the entry against S. No. 1, the entry "Five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.                       | 21. 278/76-Central Excises,    | In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (3) against S. N. 1, the entry "5 per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |  |
| dated the 16th March, 1976. |  | (b) for the entry against S. No. 2, the entry "Twenty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted;                     | dated the 17th November, 1976. |   |  |
|                             |  | (c) for the entry against S. No. 6, the entry "Twenty per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.                     | 22. 71/77-Central Excises,     | In the said notification, for the figures and words "12.5 per cent <i>ad valorem</i> ," the words "fifteen per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |  |
|                             |  |  | dated the 28th April, 1977.    |   |  |
| 15. 69/76-Central Excises,  | In the said notification, for the                            | figures and words "5.5 per cent," the words "five per cent" shall be substituted.  | 23. 156/77-Central Excises,    | In the Table annexed to the said notification. —  | (a) S. No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted ;   |
| dated the 16th March, 1976. |  |  | dated the 18th June, 1977.     |   | (b) S. No. 3 shall be renumbered as S. No. 2.  |
| 16. 92/76-Central Excises,  | In the said notification, for the                            | the words "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ," the words "twenty-five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   | 24. 158/77-Central Excises,    | In the Table annexed to the said notification, for the entries in column (3) against S. No. 3 and S. No. 4, the entries "Thirty-five per cent <i>ad valorem</i> " and "Forty per cent <i>ad valorem</i> ." shall, respectively, be substituted. |  |
| dated the 16th March, 1976. |  |  | dated the 18th June, 1977.     |   |  |
| 17. 93/76-Central Excises,  | In the said notification, for the                            | words "twenty per cent. <i>ad valorem</i> ," the words "twenty-five per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.       | 25. 159/77-Central Excises,    | In the said notification, for the   | words "twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ," the words "thirty per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted. |
| dated the 16th March, 1976. |  |  | dated the 18th June, 1977.     |   |  |
| 18. 184/76-Central Excises, | In the said notification, for the                            | figures and words "12.5 per cent. <i>ad valorem</i> ," the words "fifteen per cent. <i>ad valorem</i> ." shall be substituted. | 26. 160/77-Central Excises,    | In the Table annexed to the said notification, for the words "Thirty per cent <i>ad valorem</i> ," occurring in column (2) against item (b), the words "Forty per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.                               |  |
| dated the 27th May, 1976.   |  |  | dated the 18th June, 1977.     |   |  |
| 19. 187/76-Central Excises, | In the said notification, for the                            | words "twenty per cent <i>ad valorem</i> ," the words "twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.         | 27. 162/77-Central Excises,    | In the Table annexed to the said notification, for each of the entries in column (3) against S. Nos. 1 and 2, the entry "Ten per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |  |
| dated the 1st June, 1976.   |  |  | dated the 18th June, 1977.     |   |  |

| (1)  | (2)   | (3)   | (1)   | (2)  | (3)                      |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--------------------------|--------|-----|-----|-----|--|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|--|--|
| 28. 163/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.     | In the said notification, for the words "twenty per cent <i>ad valorem</i> .", the words "twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |   | 36. 107/78-Central Excises, dated the 27th April, 1978.   | In the said notification, for the words "ten per cent <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted. |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 29. 165/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.     | In the said notification, for the words "twelve and half per cent <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |   | [25/79/F. No. 344/1/79-TRU]   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 30. 329/77-Central Excises, dated the 26th November, 1977. | In the Table annexed to the said notification, in column (3),—<br>(a) for each of the entries against Sl. Nos. 1 and 2, the entry "Twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.<br><br>(b) for the entries against Sl. Nos. 3 and 4, the entries "Twenty per cent <i>ad valorem</i> .", and "Fifteen per cent <i>ad valorem</i> ." shall respectively, be substituted. |   | <p>सा० का० नि० 108 (अ.).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेदन देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचना, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएगी।</p> <p style="text-align: center;"><b>सारणी</b></p> <table> <tr> <th>क्रम सं०</th><th>अधिसूचना संख्या और तारीख</th><th>संशोधन</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> <tr> <td>1. 171/70-केन्द्रीय तारीख 21 नवम्बर, 1970।</td><td>उत्पाद-शुल्क,</td><td>उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।</td></tr> <tr> <td>2. 55/75-केन्द्रीय तारीख 1 मार्च, 1975।</td><td>उत्पाद-शुल्क,</td><td>उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, मद 7 और 10 का लोप किया जाएगा।</td></tr> <tr> <td>3. 20/79-केन्द्रीय तारीख 2 फरवरी, 1979।</td><td>उत्पाद-शुल्क,</td><td>उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "पांच प्रतिशत मूल्यानुसार" और "साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार प्रविष्टि रखी जाएगी।</td></tr> </table> | क्रम सं०   | अधिसूचना संख्या और तारीख | संशोधन | (1) | (2) | (3) | 1. 171/70-केन्द्रीय तारीख 21 नवम्बर, 1970। | उत्पाद-शुल्क, | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। | 2. 55/75-केन्द्रीय तारीख 1 मार्च, 1975। | उत्पाद-शुल्क, | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, मद 7 और 10 का लोप किया जाएगा। | 3. 20/79-केन्द्रीय तारीख 2 फरवरी, 1979। | उत्पाद-शुल्क, | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "पांच प्रतिशत मूल्यानुसार" और "साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार प्रविष्टि रखी जाएगी। |  |  |
| क्रम सं०   | अधिसूचना संख्या और तारीख  | संशोधन  |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| (1)  | (2)   | (3)   |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 1. 171/70-केन्द्रीय तारीख 21 नवम्बर, 1970।                 | उत्पाद-शुल्क,   | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।   |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 2. 55/75-केन्द्रीय तारीख 1 मार्च, 1975।                    | उत्पाद-शुल्क,   | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, मद 7 और 10 का लोप किया जाएगा।   |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 3. 20/79-केन्द्रीय तारीख 2 फरवरी, 1979।                    | उत्पाद-शुल्क,   | उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 2 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "पांच प्रतिशत मूल्यानुसार" और "साढ़े पांच प्रतिशत मूल्यानुसार प्रविष्टि रखी जाएगी। |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 31. 335/77-Central Excises, dated the 2nd December, 1977.  | In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted.   |   | [26/79/मि० सं० 344/1/79-टी० मार० यू०]   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 32. 15/78-Central Excises, dated the 24th January, 1978.   | In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (3) against S. No. 1, the entry "Forty per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |   | जी० के० पिल्ले, अवर सचिव  |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 33. 56/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.      | In the said notification, for the words "twenty per cent <i>ad valorem</i> .", the words "twenty-five per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |   | G.S.R 108 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue, as the case may be specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 34. 58/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.      | In the said notification, for the words "five per cent <i>ad valorem</i> .", the words "fifteen per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.   |   |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |
| 35. 60/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978.      | In the said notification, for the words "six per cent <i>ad valorem</i> .", the words "ten per cent <i>ad valorem</i> ." shall be substituted.  |   |   |  |                          |        |     |     |     |  |               |   |   |               |   |   |               |   |  |  |

manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

| Sl. No. | Notification No. and date                               | Amendment   |
|---------|---|---|
| (1)     | (2)   | (3)   |
| 1.      | 171/70—Central Excises, dated the 21st, November, 1970. | In the Table annexed to the said notification, S. No. 19 and the entries relating there to shall be omitted.  |
| 2.      | 55/75—Central Excises, dated the 1st March, 1975.       | In the Schedule annexed to the said notification, items 7 and 10 shall be omitted.  |
| 3.      | 20/79—Central Excises, dated the 2nd February, 1979.    | In the Table annexed to the said notification, for the entries in column (3) against serial Nos. 1 and 2, the entries "Five per cent <i>ad valorem</i> ." and "Five and a half per cent <i>ad valorem</i> ." shall, respectively, be substituted. |

[S. 26/79/F.No. 344/1/79-TRU]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सां. कां. निं. 109 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 ग की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले मक्खन को, चाहे पाश्चुरीकृत हो या नहीं, उस पर उद्ब्रह्णीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना बस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं. 27/79/मि. सं. 344/1/79-टी. आर. यू.]

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts butter, whether pasteurised or not, falling under sub-item (2) of Item No. 1C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent *ad valorem*.

[No. 27/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सां. कां. निं. 110 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और वैकिंग विभाग

की अधिसूचना सं. 211/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जुलाई, 1977 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 1 ग की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले वातिज जल को, उस पर उद्ब्रह्णीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना तीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट ऐसे वातिज जल को लागू नहीं होगी जिसमें कैफीन मिला हुआ हो।

[28/79/मि. सं. 344/1/79-टी. आर. यू.]

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 211/77-Central Excises, dated the 4th July, 1977, the Central Government hereby exempts aerated waters falling under sub-item (2) of Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent *ad valorem*.

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to aerated waters containing caffeine.

[No. 28/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सां. कां. निं. 111 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद I के अन्तर्गत आने वाले अतिरिक्त तम्बाकू को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ब्रह्णीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 29/79/मि. सं. 344/1/79-टी. आर. यू.]

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts un-manufactured tobacco, falling under sub-item I of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[No. 29/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० वि० 112 (अ.)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) (जिसे इसमें हमके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन की सिगरेटों को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II (2) के अन्तर्गत आती हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

### सारणी

| वर्णन  | शुल्क की दर   |
|--|---|
| सिगरेट जिसका मूल्य प्रति एक हजार—                          |   |
| (1) वस रुपए से अधिक नहीं है।                               | एक सौ पचास प्रतिशत, मूल्यानुसार धन इक्कीस रुपए प्रति एक हजार।   |
| (2) वस रुपए से अधिक है किन्तु पैंतीस रुपए से अधिक नहीं है। | एक सौ पचास प्रतिशत मूल्यानुसार, धन वस रुपए प्रति एक हजार के मूल्य के आधिक्य में प्रत्येक अतिरिक्त रुपए या उसके भाग के लिए वस प्रतिशत मूल्यानुसार, धन इक्कीस रुपए प्रति एक हजार। |
| (3) पैंतीस रुपए से अधिक है                                 | चार सौ प्रतिशत मूल्यानुसार, धन इक्कीस रुपए प्रति एक हजार।   |

### परन्तु—

(1) यदि किसी ऐसे अधिकारी के जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसी सिगरेट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद I (1) या उपमद I (4) के अन्तर्गत आने वाले अविनिमित्त सम्बाध से पूर्णतः विनिर्मित की गई हैं जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन 28 फरवरी, 1979 को या उसके पूर्व उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम पहले ही संयत कर दी गई है तो, इस अधिसूचना से उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसी सिगरेटों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क में से पाँच रुपए पचास पैसे प्रति एक हजार सिगरेटों की दर से संगणित रकम के समतुल्य रकम कम कर दी जाएगी;

(2) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क में से की गई ऐसी कमी ऐसी सिगरेटों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिनकी निकासी 1 जुलाई, 1979 को या उसके पश्चात् की जाती है;

(3) इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 78 : 24 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।

[सं० 30/79/वि० सं० 344/1/79-टी० धार० यू०]

G.S.R. 112(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) (hereinafter referred to as the Additional Duties of Excise Act), the Central Government hereby exempts cigarettes of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed, and falling under sub-item II(2) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Central Excises Act), from so much of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises Act and the Additional Duties of Excise Act, as in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

| Description  | Rate of duty   |
|--|--|
| (1)  | (2)  |
| Cigarettes of which the value per one thousand—                |  |
| (i) does not exceed rupees ten                                 | One hundred and fifty per cent <i>ad valorem plus</i> twenty-one rupees per one thousand.  |
| (ii) exceeds rupees ten but does not exceed rupees thirtyfive. | One hundred and fifty per cent <i>ad valorem plus</i> ten per cent <i>ad valorem</i> for every additional rupee or part thereof in excess of a value of rupees ten per one thousand, <i>plus</i> twenty-one rupees per one thousand. |
| (iii) exceeds rupees thirtyfive                                | Four hundred per cent <i>ad valorem plus</i> twenty-one rupees per one thousand.   |

### Provided that,—

(i) if it is proved to the satisfaction of an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that any cigarettes have been manufactured wholly from unmanufactured tobacco falling under sub-item I (1) or sub-item I(4) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises Act, on which the appropriate amount of duty of excise as leviable thereon or before the 28th February, 1979 both under the Central Excises Act and the Additional Duties of Excise Act has already been paid, the duty of excise leviable on such cigarettes as specified in the table annexed to this notification, shall be reduced by an amount equivalent



to the amount calculated at the rate of five rupees and fifty paise per one thousand cigarettes;

- (ii) no such reduction in excise duty as specified in clause (i) shall apply in respect of any cigarettes cleared on or after the 1st day of July, 1979;
- (iii) the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 76 : 24 between the duty leviable under the Central Excises Act and the Additional Duties of Excise Act, respectively.

[No. 30/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 113(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II (3) (ii) के अन्तर्गत आने वाली अन्य बीड़ियों को, एक या अधिक कारखाने से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से धरेलू उपयोग के लिए ऐसी बीड़ियों की प्रथम निकासी की बाबत साठ लाख से अधिक परिमाण तक, जिसकी निकासी 1978-79 के पश्चात् वर्षों किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है और 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान पांच लाख से अधिक परिमाण तक, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से इस शर्त के अधीन रहने हुए छूट देती है कि ऐसी बीड़ियों का विनिर्माण किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से या बीड़ियों का विक्रय किसी ब्रांड नाम के अधीन नहीं किया जाता है।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ब्रांड नाम” से अभिप्रेत है कोई ब्रांड नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिन्ह, जैसे प्रतीकचिन्ह, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई विलेख, जो उन बीड़ियों के तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की पहचान को उपदर्शित करके या उपदर्शित किए बिना, ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करता है, व्यापार के अनुक्रम में कोई सम्बन्ध उपदर्शित करने के लिए या इसलिए कि ऐसा सम्बन्ध उपदर्शित हो, उन बीड़ियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है।

[सं० 31/79/नि० सं० 344/1/79-टीआरयू]

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts ‘other biris’ falling under sub-item II(3)(ii) of Item No. 4 of the First 1254 GI/78—2

Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in respect of the first clearances of such biris for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto a quantity not exceeding 60 lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year subsequent to 1978-79 and upto a quantity not exceeding five lakhs during the period commencing on the 1st day of March, 1979 and ending on the 31st day of March, 1979 from the whole of the duty of excise leviable thereon, both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the condition that such biris are manufactured by a manufacturer by whom or on whose behalf no biris are sold under a brand name.

Explanation : For the purposes of this notification, “brand name” shall mean a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such biris for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the biris and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[No. 31/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 114(अ):—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन की अन्य बीड़ियों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II (3) (ii) के अन्तर्गत आती हैं, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानो प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

#### सारणी

| क्र० सं० | वर्णन   | शुल्क की दर           |
|----------|---|-----------------------|
| (1)      | (2)   | (3)                   |
| 1.       | किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बीड़ियों का विक्रय किसी ब्रांड नाम के अधीन नहीं किया जाता है, विनिर्मित ऐसी बीड़ियाँ जिनका विक्रय किसी ब्रांड नाम के अधीन नहीं किया जाता है। | र० 1.60 प्रति एक हजार |
| 2.       | उपरोक्त क्रम सं० 1 में विनिर्दिष्ट बीड़ियों से निम्न बीड़ियाँ।  | र० 3.60 प्रति एक हजार |

परन्तु,—

## THE TABLE

(i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि कोई बीड़ियां ऐसे अविनिर्मित तम्बाकू से पूर्णतः विनिर्मित की गई हैं, जिन पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन 28 फरवरी, 1979 को या उसके पूर्व उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम पहले ही संदत्त कर दी गई है तो इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसी बीड़ियों पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क में से अस्सी पैसे प्रति एक हजार बीड़ी की दर से संगणित रकम के समतुल्य रकम कम कर दी जाएगी ;

(ii) खंड (i) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क में से की गई ऐसी कमी ऐसी बीड़ियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी जिनकी निकासी 1 जनवरी, 1980 को या उसके पश्चात् की जाती है ;

(iii) इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “ब्रांड नाम” से अभिप्रेत है कोई ब्रांड नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिन्ह, जैसे प्रतीकचिन्ह, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई विलेख, जो उन बीड़ियों के तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की पहचान को उपरक्षित करके या उपरक्षित किए बिना, ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करता है, व्यापार के अनुक्रम में कोई सम्बन्ध उपरक्षित करने के लिए या इसलिए कि ऐसा सम्बन्ध उपरक्षित हो, उन बीड़ियों के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है ।

[सं० 32/79/मि० सं० 344/1/79-टीआरयू]

**G.S.R. 114(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts ‘other biris’ of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II (3) (ii) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

| Sl. No. | Description   | Rate of duty               |
|---------|---|----------------------------|
| (1)     | (2)   | (3)                        |
| 1.      | Biris, not sold under a brand name, manufactured by a manufacturer by whom or on whose behalf no biris are sold under a brand name. | Rs. 1.60 per one thousand. |
| 2.      | Biris other than those specified at Sl. No. 1 above.  | Rs. 3.60 per one thousand. |

Provided that—

(i) if it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that any biris have been manufactured wholly from unmanufactured tobacco on which the appropriate amount of duty of excise leviable thereon on or before 28th of February, 1979 both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, has already been paid, the duty of excise leviable on such biris as specified in the Table annexed to this notification, shall be reduced by an amount equivalent to the amount calculated at the rate of eighty paise per one thousand biris ;

(ii) no such reduction in excise duty as specified in clause (i) shall apply in respect of any biris cleared on or after the 1st day of January, 1980 ;

(iii) the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

Explanation : For the purposes of this notification, “brand name” shall mean a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such biris for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the biris and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[No. 2/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सां. कां. निं. 115(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद II (4) के अन्तर्गत आने वाले पाइपों और सिगरेटों के लिए घुमपान मिश्रण को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना तीन सौ प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है :

परन्तु इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी ।

[सं. 33/79/मि. सं. 344/1/79-टीआरयू]

**G.S.R. 115(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts smoking mixtures for pipes and cigarettes falling under sub-item II (4) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of three hundred per cent *ad valorem* :

Provided that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

[No. 33/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सां. कां. निं. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 4 की उपमद II (5) के अन्तर्गत आने वाले खाने के तम्बाकू को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व

के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क को इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसे खाने के तम्बाकू का विनिर्माण किसी विनिर्माता द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से किसी खाने के तम्बाकू का विव्रय किसी ब्रांड नाम के अधीन नहीं किया जाता है ।

**स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए 'ब्रांड नाम' से अभिप्रेत है, कोई ब्रांड नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिन्ह जैसे प्रतीकचिन्ह, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई विलेख, जो उस खाने के तम्बाकू तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उम व्यक्ति की पहचान को उपरिस्थित करके या उपरिस्थित किए बिना, ऐसे नाम या चिन्ह का प्रयोग करता है, व्यापार के अनुक्रम में कोई सम्बन्ध उपरिस्थित करने के लिए या इसलिए कि ऐसा सम्बन्ध उपरिस्थित हो, उस खाने के तम्बाकू के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है ।

[सं. 34/79/मि. सं. 344/1/79-टीआरयू]

**G.S.R. 116(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts chewing tobacco falling under sub-item II (5) of Item No. 5 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the condition that such chewing tobacco is manufactured by a manufacturer by whom or on whose behalf no chewing tobacco is sold under a brand name.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, "brand name" shall mean a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such chewing tobacco for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the chewing tobacco and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[No. 34/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सां. कां. निं. 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त-उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के खाने के तम्बाकू को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 4 की

उपमद II (5) के अन्तर्गत आता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तम्बाकू प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

## सारणी

| वर्णन   | शुल्क की दर                 |
|---|-----------------------------|
| (1)   | (2)                         |
| खाने का तम्बाकू जिसका मूल्य प्रति एक किलोग्राम— |                             |
| (i) दस रुपए से अधिक नहीं है                     | पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार |
| (ii) दस रुपए से अधिक है                         | पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार  |

परन्तु,—

(i) यदि किसी ऐसे आधिकारी को जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाना है कि कोई खाने का तम्बाकू ऐसे अधिनियमित तम्बाकू से पूर्णतः विनिर्मित किया गया है, जिस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन 28 जनवरी, 1979 को या उसके पूर्व उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम पहले ही संदल कर दी गई है तो इस अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसे खाने के तम्बाकू पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क में से, ऐसे खाने के तम्बाकू के लिए जिसका मूल्य दस रुपए प्रति एक किलोग्राम से अधिक नहीं है, इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की प्राप्ति रकम कम कर दी जाएगी तथा ऐसे खाने के तम्बाकू के लिए जिसका मूल्य दस रुपए प्रति एक किलोग्राम से अधिक है, इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की एक-तिहाई रकम कम कर दी जाएगी।

(ii) खंड (i) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क में से की गई ऐसी कमी ऐसे खाने के तम्बाकू के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिसकी निकासी 1 जनवरी, 1980 को या उसके पश्चात् की जाती है ;

(iii) इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्रांड नाम" से अभिप्रेत है कोई ब्रांड नाम चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात्

ऐसा नाम या चिह्न जैसे प्रतीकचिह्न, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई विलेख, जो उस खाने के तम्बाकू तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की पहचान को उपदर्शित करके या उपदर्शित किए बिना, ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करता है, व्यापार के अनुक्रम में कोई सम्बन्ध उपदर्शित करने के लिए या इसलिए कि ऐसा सम्बन्ध उपदर्शित हो, उस खाने के तम्बाकू के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है।

[सं० 35/79/मि० सं० 344/1/79-टीआरयू]

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts chewing tobacco of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II (5) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the duty specified in corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

| Description  | Rate of duty                             |
|--|--|
| (1)  | (2)                                      |
| Chewing tobacco of which the value per one kilo-gram—                |  |
| (i) does not exceed rupees Fifteen per cent <i>ad valorem</i> . ten. |  |
| (ii) exceeds rupees ten  | Twenty-five per cent <i>ad valorem</i> . |

Provided that—

(i) if it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that any chewing tobacco has been manufactured wholly from the unmanufactured tobacco on which the appropriate amount of duty of excise leviable thereon on or before the 28th February, 1979, both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), has already been paid,

the duty of excise leviable on such chewing tobacco as specified in the Table annexed to his notification, shall be reduced by one-half of the amount of duty so leviable for chewing tobacco of which the value per one kilogram does not exceed rupees ten and shall be reduced by one-third of the amount of duty so leviable for chewing tobacco of which the value per one kilogram exceeds rupees ten;

(ii) no such reduction in excise duty as specified in clause (i) shall apply in respect of chewing tobacco cleared on or after the 1st day of January, 1980;

(iii) the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

**Explanation.**—For the purposes of this notification, "brand name" shall mean a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such chewing tobacco for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the chewing tobacco and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[35/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा. का. नि. 118(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन की नसवार को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मव सं. 4 की उपमव II (6) के अन्तर्गत आती है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क से अधिक है।

सारणी

| वर्णन                                 | शुल्क की दर                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| (1)                                   | (2)                               |
| नसवार जिसका मूल्य प्रति एक किलोग्राम— |                                   |
| (i) वस रुपए से अधिक नहीं है           | वो रुपए पचास पैसे प्रति किलोग्राम |
| (ii) वस रुपए से अधिक है               | छह रुपए प्रति किलोग्राम           |

परन्तु,—

(i) यदि किसी ऐसे अधिकारी के जो महायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि कोई ऐसी नसवार ऐसे विनिर्मित तम्बाकू से पूर्णतः विनिर्मित की गई है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन 28 फरवरी, 1979 को या उसके पूर्व उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की समुचित रकम पहले ही संवत् कर दी गई है तो, इस अधिसूचना से उपाय सारणी में विनिर्दिष्ट ऐसी नसवार पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क में से, यदि ऐसी नसवार का मूल्य वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है तो, इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की भावी रकम कम कर दी जाएगी तथा ऐसी नसवार के लिए जिसका मूल्य वस रुपए प्रति एक किलोग्राम से अधिक है, इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की एक-तिहाई रकम कम कर दी जाएगी;

(ii) खंड (i) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क में से की गई ऐसी कमी ऐसी नसवार के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जिसकी निकासी 1 जनवरी, 1980 को या उसके पश्चात् की जाती है;

(iii) जहां ऐसी नसवार का विनिर्माण जिसका मूल्य वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है, ऐसी नसवार से किया जाता है जिस पर वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक मूल्य की नसवार पर उद्ग्रहणीय शुल्क की समुचित रकम पहले ही संवत् कर दी गई है वहां इस प्रकार विनिर्मित नसवार को, उस पर उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाएगी;

(iv) जहां ऐसी नसवार का विनिर्माण जिसका मूल्य वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है, ऐसी नसवार से किया जाता है जिस पर वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक मूल्य की नसवार पर उद्ग्रहणीय शुल्क की समुचित रकम पहले ही संवत् कर दी गई है वहां इस प्रकार विनिर्मित नसवार को, उस पर उद्ग्रहणीय प्रतिरिक्त शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाएगी;

(v) जहां ऐसी नसवार का विनिर्माण जिसका मूल्य वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है, ऐसी नसवार से किया जाता है जिसका मूल्य वस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है और जिस पर शुल्क की समुचित रकम पहले ही संवत् कर दी गई है वहां इस प्रकार विनिर्मित नसवार को उतने उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी जितना उस शुल्क के समतुल्य है जो उस नसवार पर पहले ही संवत् कर दिया गया है जिससे इसका इस प्रकार विनिर्माण किया जाता है;

(vi) इस प्रकार उद्ग्रहीत शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजित की जाएगी।

[36/79/मि. सं. 344/1/79-टी. धार. यू.]

**G.S.R. 118(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts snuff of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(6) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) as is excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

| Description                                | Rate of duty                             |
|--|--|
| (1)  | (2)                                      |
| Snuff of which the value per one kilogram— |  |
| (i) does not exceed rupees ten.            | Two rupees and fifty paise per kilogram. |
| (ii) exceeds rupees ten                    | Six rupees per kilogram.                 |

Provided that, —

(i) if it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that any snuff has been manufactured wholly from unmanufactured tobacco on which the appropriate amount of duty of excise leviable thereon on or before 28th February, 1979, both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), has already been paid, the duty of excise leviable on such snuff as specified in the Table annexed to this notification, shall be reduced by one-half of the amount of duty so leviable if the value of such snuff does not exceed rupees ten per kilogram and shall be reduced by one-third of the amount of duty so leviable for snuff of which the value per one kilogram exceeds rupees ten;

(ii) no such reduction in excise duty as specified in clause (i) shall apply in respect of any snuff cleared on or after the 1st day of January, 1980;

(iii) where snuff of which the value exceeds rupees ten per kilogram is manufactured from snuff on which the appropriate amount of duty as leviable on the snuff of which the value exceeds rupees ten per kilogram has already been paid, the snuff so manufactured shall be exempt wholly from any further duty leviable thereon;

(iv) where snuff of which the value does not exceed rupees ten per kilogram is manufactured from snuff on which the appropriate amount of duty as leviable on the snuff of which the value does not exceed rupees ten per kilogram has already been paid, the snuff so manufactured shall be exempt wholly from any further duty leviable thereon;

(v) where snuff of which the value exceeds rupees ten per kilogram is manufactured from any snuff of which the value does not exceed rupees ten per kilogram and on which the appropriate amount of duty has already been paid, the snuff so manufactured shall be exempt from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty which has already been paid on the snuff from which it is so manufactured; and

(vi) the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

[No. 36/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 119 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II (7) के अन्तर्गत आने वाले हुक्का-सम्बाकू को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और प्रतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु ऐसी किसी छूट का विस्तार किसी ऐसे हुक्का-सम्बाकू पर नहीं होगा जिसका विक्रय किसी ऐसे ब्रांड नाम के अधीन, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसे नाम या चिह्न जैसे प्रतीकचिह्न, मोनोग्राम, सेबन, हस्ताक्षर या प्राविष्टकृत शब्द या किसी विशेष के अधीन किया जाता है, जो उस हुक्का-सम्बाकू तथा किसी व्यक्ति के बीच जो उस व्यक्ति की

पहचान को उपरक्षित करके या उपरक्षित किए बिना, ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करता है, व्यापार के प्रनूकम में कोई सम्बन्ध उपरक्षित करने के लिए या इस लिए कि ऐसा सम्बन्ध उपरक्षित हो, उम हुक्का-तम्बाकू के सम्बन्ध में प्रयोग में लाया जाता है।

[37/79/मि० सं० 344/1/79-टीमारयू]

**G.S.R. 119(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts hookah tobacco falling under sub-item 11(7) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957):

Provided that no such exemption shall extend to any hookah tobacco which is sold under a brand name, whether registered or not, that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented words or any writing which is used in relation to such hookah tobacco for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the hookah tobacco and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

[37/79/F, No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 120 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में,—

(क) “अविनिमित उत्पाद” शब्दों के स्थान पर “अविनिमित उत्पाद (जो अविनिमित तम्बाकू से भिन्न है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) “यदि कोई व्यक्ति उचित अधिकारी के समक्ष इस नियम के अधीन अपेक्षित घोषणा किए बिना तम्बाकू उगाएगा तो ऐसा

व्यक्ति ऐसी शास्ति का जो एक हजार रुपये से अधिक की नहीं होगी, भागी होगा” शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35 और 38 में, “अविनिमित उत्पाद” शब्दों, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर “अविनिमित उत्पाद (जो अविनिमित तम्बाकू से भिन्न है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 16-क, 22, 32, 40-क, और 181-क, का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 21 में,—

(क) “अविनिमित उत्पाद” शब्दों, जहाँ वे दो स्थानों में आते हैं, के स्थान पर “अविनिमित उत्पाद (जो अविनिमित तम्बाकू से भिन्न है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक में, “किन्तु ऐसे उगाने वाले या सुखाने वाले की, तम्बाकू की खेती, या उसके सुखाने के सम्बन्ध में घोषणा सर्वेक्षण पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी” शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 31 में,—

(क) “अविनिमित उत्पाद” शब्दों, जहाँ-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर “अविनिमित उत्पाद (जो अविनिमित तम्बाकू से भिन्न है)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 39 और 40 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“39. अविनिमित तम्बाकू का क्रय और स्टोर करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर की घोषणा :—

प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो,—

(क) व्यापार के प्रयोजनों के लिए, किसी वर्ष में दो सौ किबंटल से अधिक अविनिमित तम्बाकू के कुल परिणाम का; या

(ख) किसी ऐसे तम्बाकू उत्पाद का जिस पर पूर्णतः या सागतः उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण करने के प्रयोजनों के लिए अविनिमित तम्बाकू का,

क्रय करता है या क्रय करना चाहता है अथवा स्टोर करता है या करना चाहता है, अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीकरण के लिए आवेदन करने के समय, उसके द्वारा स्टोर करने, रखने, छांटने, श्रेणीकरण करने, विनिर्माण

करने और अविनिमित्त तम्बाकू के या उसके विनिमित्त उत्पाद के धिक्क करने के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए, आशयित प्रत्येक स्टोरगृह, संकर्मगृह, कमरे और स्थान के सम्बन्ध में, प्ररूप में विनिर्दिष्ट विशिष्टताएं देते हुए सही घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा उचित अधिकारी को देगा; तथा प्रत्येक ऐसा स्टोरगृह, संकर्मगृह, कमरा और स्थान वही ही सुविभिन्न संख्याओं या अक्षरों अथवा संख्याओं और अक्षरों में जो घोषणा में उसके वर्णन के सामान हों, रखे, चिह्नित और संख्यांकित किए जाएंगे; तथा ऐसा न करने की दशा में ऐसा व्यक्ति प्रत्येक ऐसे स्टोरगृह, संकर्मगृह, कमरे या स्थान के लिए जो घोषित नहीं किया गया है या चिह्नित या संख्यांकित नहीं किया गया है, ऐसी शास्ति का जो एक हजार रुपये तक की हो सकेगी, भागी होगा।

स्पष्टीकरण:—इस नियम में, “वर्ष” से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली और ठीक आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

40. धोक्रेता द्वारा अविनिमित्त उत्पाद (जो अविनिमित्त तम्बाकू से भिन्न हैं) का शुल्क के भुगतान को दशित करने वाले अनुज्ञापत्र के अधीन ही, प्राप्त किया जाना अथवा नहीं: नियम 171 में जैसा उप-बन्धित है उसके सिवाय अविनिमित्त उत्पाद (जो अविनिमित्त तम्बाकू से भिन्न हैं) का धोक्रेता कोई अविनिमित्त उत्पाद (जो अविनिमित्त तम्बाकू से भिन्न है) अथवा ऐसे उत्पाद जो विदेश से आयात किए जाते हैं, अपने परिसरों के किसी भाग में या अपनी अभिरक्षा या कब्जे में किसी सुखाने वाले से, किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी ऐसे विधिमार्ग अनुज्ञापत्र के अधीन ही जिसमें यह वर्णित किया गया हो कि उचित शुल्क का संवाय कर दिया गया है, प्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं अथवा उसके बदले में केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्ग किसी अन्य विधिमार्ग परिवहन वस्तावेज के अधीन प्राप्त करेगा जिसमें यह भी दर्शित किया गया हो कि उचित शुल्क का संवाय कर दिया गया है तथा प्रत्येक ऐसा धोक्रेता जो कोई ऐसे उत्पाद इस नियम के उल्लंघन में प्राप्त करता है या अपनी अभिरक्षा या कब्जे में रखता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के सम्बन्ध में ऐसे उत्पाद पर उद्-ग्रहणीय शुल्क का संवाय करने का और ऐसी शास्ति का जो दो हजार रुपये तक की हो सकेगी, भागी होगा, तथा ऐसे उत्पाद का अधिहरण भी किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसा अनुज्ञापत्र या अन्य परिवहन वस्तावेज तब तक विधिमार्ग नहीं समझा जाएगा जब तक, यथास्थिति अनुज्ञापत्र या परिवहन वस्तावेज के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद का वर्णन और अन्य ब्यौरे, प्राप्त उत्पाद के वर्णन और अन्य ब्यौरे के अनुरूप न हों।”

8. उक्त नियमों के नियम 41 में, “व्यापार या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अविनिमित्त तम्बाकू और अन्य अविनिमित्त उत्पाद का प्रत्येक धोक्रेता” शब्दों के स्थान पर “अविनिमित्त उत्पाद (जो अविनिमित्त तम्बाकू से भिन्न हैं)” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

9. उक्त नियमों के नियम 42 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“42. कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रविष्टि पुस्तकों का रखा जाना :— प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो,—

- (क) व्यापार के प्रयोजनों के लिए, किसी वर्ष में दो सौ किबंटल से अधिक अविनिमित्त तम्बाकू के कुल परिमाण का; या
- (ख) किसी ऐसे तम्बाकू के जिस पर उत्पाद शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय है, विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए अविनिमित्त तम्बाकू का

क्रय करता है या क्रय करना चाहता है अथवा स्टोर करता है या स्टोर करना चाहता है, उचित प्ररूप में या ऐसे अन्य प्ररूप में जो कलेक्टर किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, ऐसी पुस्तक रखेगा जिसमें वह उसी दिन जिस दिन वह कोई ऐसा माल प्राप्त करता है या भेजता है, ऐसी प्राप्ति और भेजने की तारीख तथा ऐसे माल का वजन और मूल्य तथा ऐसे व्यक्ति का जिससे वह उन्हें प्राप्त करता है या भेजता है, पूरा नाम और पता उचित स्तम्भ में लिखेगा और दर्ज करेगा।

स्पष्टीकरण:— इस नियम में, “वर्ष” से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली और ठीक आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।”

10. उक्त नियमों के नियम 173छ के उप-नियम (2) के परन्तुक के खंड (iii) का लोप किया जाएगा।

[38/79/मि० सं० 344/1/79 टीभारम्.]

G.S.R. 120(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excises (Second Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 15 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules),—

- (a) for the words “unmanufactured products”, the words and brackets “unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco)” shall be substituted;
- (b) the words “If any person cultivates tobacco without making the declaration required under this rule



before the proper officer, such person shall be liable to a penalty not exceeding one thousand rupees" shall be omitted.

3. In rules 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35 and 38 of the said rules, for the words "unmanufactured products", wherever they occur, the words and brackets "unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco)" shall be substituted.

4. Rules 16A, 22, 32, 40A and 181A of the said rules shall be omitted.

5. In rule 21 of the said rules,—

(a) for the words "unmanufactured products", in the two places where they occur, the words and brackets "unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco)" shall be substituted;

(b) in the proviso, the words "but the declaration of such grower or curer in respect of cultivation or curing of tobacco shall be recorded in the Survey Book" shall be omitted.

6. In rule 31 of the said rules,—

(a) for the words "unmanufactured products", wherever they occur, the words and brackets "unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco)" shall be substituted;

(b) in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

7. For rules 39 and 40 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely :—

"39. Declaration of premises by persons purchasing and storing unmanufacturing tobacco.—Every person who purchases or intends to purchase, or stores or intends to store,—

(a) for the purposes of trade, a total quantity in any year of unmanufactured tobacco exceeding two hundred quintals; or

(b) unmanufactured tobacco for the purposes of manufacture of any tobacco products on which duty of excise is leviable whether in whole or part,

shall, at the time of applying for a licence or for renewal thereof, make a true declaration in respect of every store-house, work-house, room and place used or intended to be used by him, for the storing, keeping, sorting, grading, manufacturing, and selling of unmanufactured tobacco or products manufactured therefrom, giving the particulars specified in the form and deliver such declaration to the proper officer; and every such store house, work-house, room and 1254 GI/78—3,

place shall be kept, marked and numbered with the like distinguishing numbers or letters, or numbers and letters, corresponding to the description thereof in the declaration; and in default thereof such person shall, for every store-house, work-house, room or place not declared or not marked, or numbered, be liable to a penalty which may extend to one thousand rupees.

Explanation.—In this rule, "year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following.

40. Wholesale purchaser may not receive unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco) except under permit showing payment of duty.—Except as provided in rule 171, no wholesale purchaser of unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco) shall receive from a curer into any part of his premises or into his custody or possession any unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco), or such products, imported from a foreign country, otherwise than under a valid permit granted by an officer showing that the proper duty has been paid, or under any other valid transport document recognised by the Central Government in lieu thereof which shall also show that the proper duty has been paid; and every such wholesale purchaser who receives or has in his custody or possession any such products, in contravention of this rule, shall in respect of every such offence, be liable to pay the duty leviable on such products and to a penalty which may extend to two thousand rupees, and the products shall also be liable to confiscation.

Explanation.—For the purposes of this rule, a permit or other transport document shall not be deemed to be valid unless the description and other details of the products covered by the permit or the transport document, as the case may be, tally with description and other details of the products received."

8. In rule 41 of the said rules, for the words "unmanufactured tobacco for the purpose of trade or manufacture and every wholesale purchaser of other unmanufactured products", the words and brackets "unmanufactured products (other than unmanufactured tobacco)" shall be substituted.

9. For the rule 42 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"42. Certain persons to keep Entry Books : Every person who purchases or intends to purchase, or stores or intends to store, —

(a) for the purposes of trade, a total quantity in any year of unmanufactured tobacco exceeding two hundred quintals; or

- (b) unmanufactured tobacco for the purposes of manufacture of any tobacco products on which duty of excise is leviable whether in whole or part,

shall maintain a book in the proper Form, or in such other Form as the Collector may, in any particular case, allow in which he shall, on the same day on which he receives or despatches any such goods, write and enter in the proper column the date of such receipt or despatch and the weight and value of such goods and the full name and address of the person from or to whom he has received or despatched them.

Explanation.—In this rule, “year” means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following”.

10. In rule 173G of the said rules, in sub-rule (2), in the proviso, clause (iii) shall be omitted.

[No. 38/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 121 (ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 82/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 मई, 1977 को विरुद्धित करती है।

[39/79/मि० सं० 344/1/79-टी० प्रार० य०]

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 82/77-Central Excises, dated the 4th May, 1977.

[No. 39/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 122 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 111/78 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 9 मई, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 1 में, “माल” शब्द के स्थान पर “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 4 की उपमद I के अन्तर्गत आने वाले अविनिर्मित तम्बाकू से भिन्न माल” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[40/79/मि० सं० 344/1/79 टी० प्रार० य०]

G.S.R. 122(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 111/78-Central Excises, dated the 9th May, 1978, namely :—

In the said notification, in serial number 1, for the word “goods”, the words, figures, letters and brackets “goods, other than unmanufactured tobacco falling under sub-item I of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944),” shall be substituted.

[No. 40/79/F. No. 344/1/79-TRU]

सा० का० नि० 123 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 4 की उपमद I के अन्तर्गत आने वाले अविनिर्मित तम्बाकू को उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन रहने हुए छूट देती है कि—

- (क) किसी एक वर्ष में व्यापार के प्रयोजनों के लिए क्रय या स्टोर किए गए तम्बाकू का कुल परिमाण वजन में दो सौ किबंटल से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड में, “वर्ष” से 1 अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाली और ठीक आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है; या

- (ख) क्रय या स्टोर किया गया ऐसा तम्बाकू किसी ऐसे तम्बाकू उत्पाद के जिम पर उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्बृहणी है विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाता

[41/79/मि० सं० 344/1/79/टी० प्रार० य०]

लज्जा राम, उप सचिव

G.S.R. 123(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said Rules, unmanufactured tobacco falling under sub-item I of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), subject to the condition that—

- (a) the total quantity of such tobacco purchased, or stored, for the purposes of trade in one year shall not exceed two hundred quintals in weight.

Explanation.—In this clause “year” means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following ; or

- (b) such tobacco purchased, or stored, is not used for the purposes of manufacture of any tobacco products on which duty of excise is leviable whether in whole or part.

[No. 41/79/F. No. 344/1/79-TRU]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा० का० नि० 124 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश करती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग या राजस्व और कम्पनी विधि विभाग या राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचना को जो इससे उपायुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानीय प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथा-स्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएगी।

#### सारणी

| क्रम सं० | अधिसूचना संख्या और तारीख                              | संशोधन   |
|----------|---|--|
| 1        | 2   | 3  |
| 1.       | 187/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 दिसम्बर, 1961 | उक्त अधिसूचना में, “4.15 रुपए” अंकों और शब्दों के स्थान पर “चार रुपए पचास पैसे” शब्द रखे जाएंगे।       |
| 2.       | 194/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962  | उक्त अधिसूचना में, “9.00 रुपए” अंकों और शब्दों के स्थान पर “दस रुपए” शब्द रखे जाएंगे।                  |
| 3.       | 123/63—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 जुलाई, 1963   | उक्त अधिसूचना में, “एक सौ इकसठ रुपए सत्तर पैसे” शब्दों के स्थान पर “एक सौ सत्तर रुपए” शब्द रखे जाएंगे। |
| 4.       | 4/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1964     | उक्त अधिसूचना में, “चार सौ पचास रुपए” शब्दों के स्थान पर “चार सौ पच्चाहत्तर रुपए” शब्द रखे जाएंगे।     |

| 1  | 2   | 3  |
|----|---|--|
| 5. | 130/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1965   | उक्त अधिसूचना में, “एक सौ छह रुपए पचासी पैसे” शब्दों के स्थान पर “एक सौ पन्द्रह रुपए” शब्द रखे जाएंगे। |
| 6. | 147/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1966   | उक्त अधिसूचना में, “69.45 रुपए” अंकों और शब्दों के स्थान पर “पच्चाहत्तर रुपए” शब्द रखे जाएंगे।         |
| 7. | 276/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967 | उक्त अधिसूचना में,—<br>(1) परन्तु के स्थान पर निम्न-लिखित परन्तु रखा जाएगा अर्थात् :—                  |

“परन्तु किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क माल को जिसका प्रज्वलन ताप छहत्तर डिग्री फारनहाइट थर्मामीटर से नीचे है और जिसमें मात्रा के आधार पर सात प्रतिशत से अत्युत्तम का घासबन 215 डिग्री से० से० से ऊपर होता है और जिसकी औद्योगिक ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए (किन्तु अन्त-दहन ईंधन के लिए ईंधन के रूप में नहीं) इस खण्ड के अधीन निकासी की जाती है उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी जितना,—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 6, 7, और 8 के अन्तर्गत आने वाले माल की वशा में पन्द्रह डिग्री से० से० पर 103.43 रुपए प्रति किलोमीटर से; और

| 1   | 2   | 3  | 1  | 2   | 3   |
|---|---|--|--|---|---|
|   |   | (ख) पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची में की मद्य सं० 10 से 11 तक के अंतर्गत आने वाले माल की बहा में पन्नाह डिग्री सें०ग्रे० पर 98.50 रुपए प्रति किलोलिटर से,  |  |   | मद्य सं० 9 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से, पैरा 2, 3 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,"।  |
|   |   | अधिक है :—   | 9. 134/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जून, 1968   | उक्त अधिसूचना में, "एक सौ छह रुपए पचासी पैसे" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ पन्नाह रुपए" शब्द रखे जायेंगे। |   |
|   | (ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :— |  | 10. 44/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 अप्रैल, 1971 | उक्त अधिसूचना में, "70.70 रुपए" शर्तों और शब्द के स्थान पर, "पञ्चहत्तर रुपए" शब्द रखे जायेंगे।          |   |
|   |   | "परन्तुक यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद्य सं० 9 के अंतर्गत आने वाले ऐसे उत्पाद शुल्क माल को लागू नहीं होगी जिसका प्रचलन ताप छहत्तर डिग्री फारनहाइट थर्मामीटर के नीचे है और जिसमें मात्रा के आधार पर सात प्रतिशत से अल्पतम 215 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आसवन होता है।" | 11. 34/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973  | उक्त अधिसूचना में "34.00 रुपए" शर्तों और शब्द के स्थान पर "पैंतीस रुपए" शब्द रखे जायेंगे।               |   |
|   |   |  | 12. 35/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973  | उक्त अधिसूचना में, "450.00 रुपए" शर्तों और शब्द के स्थान पर "चार सौ पञ्चहत्तर रुपए" शब्द रखे जायेंगे।   |   |
|   |   |  | 13. 9/74-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जनवरी, 1974  | उक्त अधिसूचना में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात् :—                           |   |
| 8. 133/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 जून 1968 |   | (i) खंड (क) में "या मद्य सं० 9" शब्दों, अक्षरों और श्रृंखला को छोड़ दिया जाएगा;  |  |   | "(i) यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद्य सं० 9 के अधीन उसका वर्गीकरण किया जाए तो, 15 डिग्री सें०ग्रे० थर्मामीटर पर 12.60 रुपए प्रति किलोलिटर; या |
|   |   | (ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  |  |   | (i) यदि उक्त प्रथम अनुसूची की मद्य सं० 10 के अधीन उसका वर्गीकरण किया जाए, तो 15 डिग्री सें०ग्रे० थर्मामीटर पर 12.00 रुपए प्रति किलोलिटर; या"।   |
|   |   | "(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की, यथास्थिति, मद्य सं० 8 या   |  |   |   |

| 1   | 2  | 3 |
|---|--|---|
| 14. 21/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में,—<br>तारीख 1 मार्च, 1974        | (i) "1921.55", "1763.20" और "1900.00" शकों के स्थान पर क्रमशः "2020.00", "1850.00" और "1895.00" शक रखे जायेंगे;  |   |
|   | (ii) परम्युक्त में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार पचास रुपए" शब्द रखे जायेंगे।   |   |
| 15. 138/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में, "83.45 तारीख 14 सितम्बर, 1974 | रुपए" शकों और शब्द के स्थान पर "नब्बे रुपए" शब्द रखे जायेंगे।  |   |
| 16. 190/75 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में, "25.00 तारीख 30 अगस्त, 1975   | रुपए" शकों और शब्द के स्थान पर "छब्बीस रुपए पचास पैसे" शब्द रखे जायेंगे।   |   |
| 17. 60/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना से उपाबन्ध सारणी में,—              | (i) क्रम सं० 1 और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;  |   |
|   | (ii) 2 से 6 तक की क्रम संख्याएं क्रमशः क्रम सं० 1 से 5 तक पुनः संख्यांकित की जाएंगी;   |   |
|   | (iii) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम सं० 1 में, स्तम्भ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड बर्मा-मीटर पर पञ्चहसर रुपए प्रति किगोलीटर" प्रविष्टि रखी जाएगी। |   |

| 1  | 2   | 3 |
|--|---|---|
| 18. 50/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना में, "500.00 तारीख 1 अप्रैल, 1977      | रुपए" शकों और शब्द के स्थान पर, "पाँच सौ पञ्चवीस रुपये" शब्द रखे जायेंगे।                                       |   |
| 19. 72/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना से उपाबन्ध सारणी तारीख 29 अप्रैल, 1977 | में क्रम सं० 1 में, स्तम्भ (4) में, "4.15 रुपए" शकों और शब्द के स्थान पर, "चार रुपए पचास पैसे" शब्द रखे जाएंगे। |   |
| 20. 281/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उक्त अधिसूचना में, "25 रुपए" तारीख-12 सितम्बर, 1977  | शकों और शब्द के स्थान पर "छब्बीस रुपए पचास पैसे" शब्द रखे जायेंगे।  |   |

[42/79 सि०सं० 344/1/79-टी० प्रार० यू०]

G.S.R. 124 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue or Department of Revenue and Company Law or Department of Revenue and Insurance) or Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| Sl. No. | Notification No. & date                                | Amendment   |
|---------|--|---|
| 1.      | 187/61—Central Excises, dated the 23rd December, 1961  | In the said notification, for the letters and figures "Rs. 4.15", the words "four rupees and fifty paise" shall be substituted. |
| 2.      | 194/62—Central Excises, dated the 17th November, 1962. | In the said notification, for the letters and figures "Rs. 9.00", the words "ten rupees" shall be substituted.                  |

| 1  | 2  | 3 | 1   | 2  | 3   |
|--|--|---|---|--|---|
| 3. 123/63—Central Excises,<br>dated the 27th July, 1963.   | In the said notification, for the words "one hundred and sixty one rupees and seventy paise", the words "one hundred and seventy rupees", shall be substituted.  |   |   |  | (ii) after the proviso as so substituted the following proviso shall be inserted, namely :—<br><br>"Provided further that nothing contained in this notification shall apply to excisable goods, falling under Item No. 9 of the aforesaid First Schedule, having its flashing point below seventy-six degrees of Fahrenheit's thermometer and not less than 7% by volume of which distills above 215°C." |
| 4. 4/64—Central Excises,<br>dated the 18th, January, 1964. | In the said notification, for the words "rupees four hundred and fifty", the words "four hundred and seventy-five rupees" shall be substituted.  |   |   |  |   |
| 5. 130/65—Central Excises, dated the 20th August, 1965.    | In the said notification, for the words "one hundred and six rupees and eighty-five paise", the words "one hundred and fifteen rupees" shall be substituted.   |   | 8. 133/68—Central Excises, dated the 22nd June, 1968. | In the said notification, in the first paragraph,—   |   |
| 6. 14C/66—Central Excises, dated the 26th February, 1966.  | In the said notification, for the letters and figures "Rs. 69.45", the words "seventy-five rupees" shall be substituted.   |   |   | (i) in clause (a), the words, letters and figure "or Item No. 9, as the case may be" shall be omitted;   |   |
| 7. 276/67—Central Excises, dated the 21st December, 1967.  | In the said notification,—<br>(i) for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—<br><br>"Provided that any of the excisable goods having its flashing point below seventy-six degrees of Fahrenheit's thermometer and not less than 7% by volume of which distills above 215°C, and cleared under this clause for use as Industrial fuel (but not as fuel for internal combustion engine) shall be exempt from so much of the duty leviable thereon as is in excess of—<br><br>(a) Rs. 103.43 per kilolitre at 15°C in the case of goods falling under Items Nos. 6, 7 and 8 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944); and<br><br>(b) Rs. 98.50 per kilolitre at 15°C in the case of goods falling under Items Nos. 10 to 11A of the aforesaid First Schedule." |   |   | (ii) for clause (b) the following clause shall be substituted, namely :—<br><br>"(b) from the whole of the duty of excise leviable thereon under Item No. 8 or Item No. 9, as the case may be, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), subject to the conditions specified in paragraphs 2, 3 and 4." |   |
|  |  |   | 9. 134/68—Central Excises, dated the 29th June, 1968. | In the said notification, for the words "one hundred and six rupees and eighty-five paise", the words "one hundred and fifteen rupees" shall be substituted.   |   |
|  |  |   | 10. 44/71—Central Excises, dated the 7th April, 1971. | In the said notification, for the letters and figures "Rs. 70.70", the words "seventy-five rupees" shall be substituted.   |   |
|  |  |   | 11. 34/73—Central Excises, dated the 1st March, 1973. | In the said notification, for the letters and figures "Rs. 34.00", the words "thirty-five rupees" shall be substituted.  |   |

| 1                          | 2  | 3   | 1                          | 2  | 3  |
|----------------------------|--|---|----------------------------|--|--|
| 12. 35/73-Central Excises, | In the said notification, for the dated the 1st March, 1973.             | letters and figures "Rs. 450.00" the words "four hundred and seventy-five rupees" shall be substituted.   | 17. 60/76-Central Excises, | In the Table annexed to the said dated the 16th March 1976.              | notification,—   |
|                            |  |   |                            |  | (i) S. No. 1 and the entries relating thereto shall be omitted;  |
|                            |  |   |                            |  | (ii) S. Nos. 2 to 6 shall be renumbered respectively as S. Nos. 1 to 5;  |
|                            |  |   |                            |  | (iii) in S. No. 1 as so renumbered, for the entry in column (4), the entry "Seventy-five rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer," shall be substituted. |
| 13. 9/74-Central Excises,  | In the said notification, for dated the 26th January, 1974.              | clause (i), the following clauses shall be substituted, namely :—<br><br>“(i) Rs. 12.60 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer when classified under Item No. 9 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944); or<br><br>(ia) Rs. 12.00 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer when classified under Item No. 10 of the said First Schedule; or”. | 18. 50/77-Central Excises, | In the said notification, for the dated the 1st April, 1977.             | letters and figures "Rs. 500.00", the words "five hundred and twenty-five rupees" shall be substituted.  |
| 14. 21/74-Central Excises, | In the said notification,—dated the 1st March, 1974.                     | (i) for the figures "1921.55", "1763.20" and "1900.00", the figures "2020.00", "1850.00", and "1995.00" shall, respectively, be substituted;<br><br>(ii) in the proviso, for the words "one thousand rupees", the words "one thousand and fifty rupees" shall be substituted.   | 19. 72/77-Central Excises, | In the Table annexed to the said dated the 29th April, 1977.             | notification, in S. No. 1, in column (4), for the letters and figures "Rs. 4.15", the words "Four rupees and fifty paise" shall be substituted.                                    |
|                            |  |   | 20. 291/77-Central Ex-     | In the said notification, for the cises, dated the 12th September, 1977. | letters and figures "Rs. 25/-", the words "twenty-six rupees and fifty paise" shall be substituted.  |
| 15. 138/74-Central Ex-     | In the said notification, for the cises, dated the 14th September, 1974. | letters and figures "Rs. 83.45", the words "ninety rupees" shall be substituted.  |                            |  |  |
| 16. 190/75-Central Ex-     | In the said notification, for the cises, dated the 30th August, 1975.    | letters and figures "Rs. 25.00", the words "twenty-six rupees and fifty paise" shall be substituted.  |                            |  |  |

[42/79/F. No. 344]

सांकांमि० 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 189/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 अक्टूबर, 1978 को अधिकांश करते हुए निदेश करती है कि जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 7 के अंतर्गत आने वाला मिट्टी का तेल जो विनयर एल्काइन बेंजीन या भारी एल्कीलेट के विनिर्माण में प्रयोग के लिए किसी ऐसे परिसर में प्राप्त होता है जिसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 140 के उप-नियम (2) के अधीन परिष्करण के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषित परिष्करण कहा गया है) घोषित किया जाता है, वहाँ घोषित परिष्करण द्वारा ऐसे प्रयोग के पश्चात् पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 से 11 तक की किसी मद के अन्तर्गत

माने वाले तैयार उत्पाद-शुल्क मान के उत्पादन के लिए आने प्रस्तुतकरण या सम्मिश्रण या दोनों के लिए ऐसी परिष्करण की जिसने मिट्टी के तेल का प्रदाय किया या लौटाये गए मिट्टी के तेल के ऐसे परिणाम को, यदि कोई हो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, कि ऐसे अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि लिनमर एल्काइल बेंजीन या आने एल्कीलेट के विनिर्माण के लिए घोषित परिष्करण में प्रयोग के लिए प्राप्त मिट्टी के तेल का इस प्रकार प्रयोग किया गया है।

[43/79 मि० सं०]

**G.S.R. 125(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 189/78-Central Excises, dated the 23rd October, 1978, the Central Government hereby directs that where kerosene, falling under Item No. 7 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), is received in any premises declared under sub-rule (2) of rule 140 of the Central Excise Rules, 1944 to be a refinery (hereinafter referred to as the declared refinery), for use in the manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate, then, the quantity of kerosene, if any, returned back by the declared refinery, after such use, to the refinery, which supplied the kerosene, for further processing or blending or both for production of finished excisable goods falling under any of the Items Nos. 6 to 11A of the aforesaid First Schedule, shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the condition that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the kerosene received for use in the declared refinery for the manufacture of linear alkyl benzene or heavy alkylate is so used.

[43/79/F. No.]

सां०का०नि० 126(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 314/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977 को अधिकांश करने हुए,—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मय सं० 8(क) के अंतर्गत आने वाले बाक्साइट विलायक तेल से भिन्न परिष्कृत डीजल तेल को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर पांच सौ रुपए प्रति किलोमिटर से अधिक है; और

(ख) उक्त मय सं० 8(क) के अंतर्गत आने वाले बाक्साइट विलायक तेल को, उस पर उद्ग्रहणीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर पांच सौ रुपए प्रति किलोमिटर से अधिक है:

परन्तु उक्त मय सं० 8(क) के अंतर्गत आने वाले ट्रांसफार्मर आयल के सम्बन्ध में इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल ऐसे ट्रांसफार्मर आयल को लागू होगी जिसका ऐसे ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक या ट्रांसफार्मर आयल फीड स्टॉक से विनिर्माण किया जाता है जिस पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित उत्पाद-शुल्क या अनिर्गम्य शुल्क पहले ही संदत्त कर दिया गया है।

[44/79/मि० सं० ]

**G.S.R. 126(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 344/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977, the Central Government hereby exempts—

- (a) Refined Diesel Oil, other than Bauxite Solvent Oil, falling under Item No. 8(a) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five hundred rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer; and
- (b) Bauxite Solvent Oil, falling under the said Item No. 8(a), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five hundred and fifty rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer:

Provided that in relation to Transformer Oil, falling under the said Item No. 8(a), the exemption contained in this notification shall apply to only such Transformer Oil which is manufactured from Transformer Oil base stock or Transformer Oil feed stock on which the appropriate duty of excise, or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.

[44/79/F. No.]

सां०का०नि० 127(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 353/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर



1977 को अधिस्तान्त करते हुए, कार्बन ब्लैक के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग करने के लिए, आशयित कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा-शेल कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक एस एल को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना,—

(क) जब उसका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 9 के अधीन वर्गीकरण किया जाए, तब पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड बर्मा-मीटर पर नौ रुपए पैंतालीस पैसे प्रति किलोलिटर से; या

(ख) जब उसका उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 10 के अधीन वर्गीकरण किया जाए तब पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड बर्मा-मीटर पर नौ रुपए प्रति किलोलिटर से,

अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि,—

(i) सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि ऐसे कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक सं० 72 और बर्मा-शेल कार्बन ब्लैक फीड स्टॉक एस एल का इस प्रकार प्रयोग किया गया है; और

(ii) जहाँ ऐसा प्रयोग उत्पादन के कारखाने से भिन्न किसी स्थान पर किया जाता है, वहाँ, छूट तभी अनुज्ञेय होगी जब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।

[45/79/मि०सं० ]

**G.S.R. 127(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 353/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977, the Central Government hereby exempts Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon Black Feed Stock SL, intended for use as industrial feed-stock in the manufacture of carbon black from so much of the duty of excise leviable hereon as is in excess of—

(a) nine rupees and forty-five paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer, when classified under Item No. 9 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944); or

(b) nine rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer, when classified under Item No. 10 of the said First Schedule :

Provided that —

(i) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that such Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Carbon Black Feed Stock SL are so used; and

(ii) where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowable only if the procedure laid down in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[45/79/F. No. ]

1254 GI/78—4.

सा० का० मि० 128(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 203/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 9 सितम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थातः—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के नीचे की मारणी में क्रमसं० 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के सामने स्तम्भ (3) में आने वाले “46.55 रुपए”, “23.75 रुपए”, “57.45 रुपए”, “23.75 रुपए”, “49.05 रुपए” और “52.75 रुपए”, अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः “50.00 रुपए”, “25.00 रुपए”, “60.00 रुपए”, “25.00 रुपए”, “50.00 रुपए” और “55.00 रुपए” अंक और शब्द रखे जायेंगे।

[46/79/मि०सं० 344/1/79-टी०आर०यू०]

टी०आर० रुस्तगी, सचिव

**G.S.R. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 203/67-Central Excises, dated the 9th September, 1967, namely :—

In the said notification, in the Table below the proviso, for the letters and figures “Rs. 46.55”, “Rs. 23.75”, “Rs. 57.45”, “Rs. 23.75”, “Rs. 49.05” and “Rs. 52.75”, occurring in column (3) against S. Nos. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, the letters and figures “Rs. 50.00”, “Rs. 25.00”, “Rs. 60.00”, “Rs. 25.00”, “Rs. 50.00” and “Rs. 55.00” shall, respectively, be substituted.

[46/79/F. No. 344/1/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सा० का० मि० 129(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाली अपरिष्कृत ग्लिसरीन की जिसका ऐसे कारखाने में उपभोग किया जाता है जिसमें इसका उत्पादन उक्त मद सं० 14 की उपमद (2) के अंतर्गत आने वाली ग्लिसरीन की किसी किस्म का आगे विनिर्माण करने के लिए किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु जहाँ ऐसा उपभोग उत्पादन कारखाने से भिन्न किसी अन्य स्थान पर किया जाता है वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्दिष्ट छूट तभी अनुज्ञात की जाएगी जब उक्त नियमों के नियम 56क में अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

[47/79/मि०सं० ]

जी० के० फिले, सचिव

**G.S.R. 129(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby exempts crude glycerine falling under sub-item 1 of Item No. 14C of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and consumed within the factory in which it is produced for further manufacture of any variety of glycerine

falling under sub-item 2 of the said Item No. 14C, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that where such consumption is elsewhere than in the factory of production, the exemption contained in this notification shall be allowable only if the procedure laid down in rule 56A of the said rules is followed.

[47/79/F. No. ]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सांकांनि० 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 25/64 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1964 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14छ के अन्तर्गत आने वाले नाइट्रिक एसिड को, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[48/79/मि०सं० ]

G.S.R. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964, the Central Government hereby exempts nitric acid falling under Item No. 14G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 48/79/F. No. ]

सांकांनि० 131(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14छ के अन्तर्गत आने वाली मल्फ्यूरिक एसिड को यदि उसका प्रयोग उक्त अनुसूची की उक्त मद सं० 14छ के अन्तर्गत आने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विनिर्माण में किया जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर उत्पाद-शुल्क पूर्णतः या भागतः उद्ग्रहणीय हो तो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब कि उक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन करने वाले कारखाने से भिन्न किसी स्थान पर उत्पादित उक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 56क में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

[49/79]

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sulphuric acid falling under Item No. 14G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if used in the manufacture of hydrochloric acid falling under the said Item No. 14G of the said Schedule and the duty of excise is leviable whether in whole or part on hydrochloric acid;

Provided that in respect of the said sulphuric acid produced elsewhere than in the factory of production of the said hydrochloric acid, the procedure set out in rule 56A of the said rules is followed.

[49/79]

सांकांनि० 132(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 ज की उपमद (4) के अन्तर्गत

आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना एक रुपया प्रति किलोग्राम से अधिक है।

[50/79]

लज्जा राम, उप सचिव

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, carbon dioxide, falling under sub-item (iv) of Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one rupee per kilogram.

[50/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सांकांनि० 133(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14ज के अन्तर्गत आने वाली क्लोरीन को, यदि उसका प्रयोग उक्त अनुसूची की मद सं० 14छ के अन्तर्गत आने वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विनिर्माण में किया जाता है और ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर उत्पाद-शुल्क भागतः या पूर्णतः उद्ग्रहणीय है तो, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जबकि उक्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन कारखाने से भिन्न किसी स्थान पर उत्पादित उक्त क्लोरीन के सम्बन्ध में, उक्त नियमों के नियम 56क में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[51/79]

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts chlorine falling under Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if used in the manufacture of hydrochloric acid falling under Item No. 14G of the said Schedule and the duty of excise is leviable whether in whole or part, on such hydrochloric acid;

Provided that in respect of the said chlorine produced elsewhere than in the factory of production of the said hydrochloric acid, the procedure set out in rule 56A of the said rules is followed.

[51/79]

सांकांनि० 134(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14ज के अन्तर्गत आने वाले और नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उर्वरकों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है।

सारणी

| क्रम सं० | वर्णन                                 | शुल्क की दर              |
|----------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.       | उर्वरक, जो निम्नलिखित से भिन्न हैं, — | 7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार  |
|          | (i) सिंगल सुपर फास्फेट                |                          |
|          | (ii) ट्रिपल सुपर फास्फेट              |                          |
| 2.       | सिंगल सुपर फास्फेट                    | 3.75 प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 3.       | ट्रिपल सुपर फास्फेट                   | 3.75 प्रतिशत मूल्यानुसार |

[52/79]

टी०भार० रुस्तगी, अपर सचिव

**G.S.R. 134(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fertilisers of the description specified in column (2) of the Table below and falling under Item No. 14HH of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said table.

TABLE

| S. No. | Description                  | Rate of duty                       |
|--------|------------------------------|------------------------------------|
| 1.     | Fertilisers other than—      | 7.5 per cent. <i>ad valorem</i> .  |
|        | (i) Single Super Phosphate   |                                    |
|        | (ii) Triple Super Phosphate. |                                    |
| 2.     | Single Super Phosphate       | 3.75 per cent. <i>ad valorem</i> . |
| 3.     | Triple Super Phosphate       | 3.75 per cent. <i>ad valorem</i> . |

[52/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

**सांकांति० 135(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 44/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिष्ठाते करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले अन्य किस्म के साबुन को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है ;

परन्तु यह तब जब कि ऐसे साबुन का मुख्य सात हजार आठ सौ रुपए प्रति मीटरी टन से कम हो।

[53/79]

**G.S.R. 135(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 44/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby exempts soap, other sorts falling under sub-item (2) of Item No. 15 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifteen per cent. *ad Valorem*;

Provided that the value of such soap is below rupees seven thousand and eight hundred per metric tonne.

[53/79]

**सांकांति० 136(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले रबड़ उत्पादों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पैंसीम प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[54/79]

**G.S.R. 136(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944,

the Central Government hereby exempts rubber products falling under sub-item (2) of Item No. 16A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty five per cent. *ad valorem*.

[54/79]

**सांकांति० 137(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 16/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 फरवरी, 1968 की अधिष्ठाते करते हुए, इसमें उपाधुक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 16 के अन्तर्गत आने वाले प्लाईवुड और बोर्ड का उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

## सारणी

| क्र० सं० | वर्णन  | शुल्क की दर             |
|----------|--|-------------------------|
| 1.       | कर्मशायन प्लाईवुड  | बीस प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 2.       | बेटेन बोर्ड और ब्लोक बोर्ड (जिनके अन्तर्गत सपाट द्वार हैं) जिनके दोनों ओर कर्मशायन प्लाईवुड हो   | बीस प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 3.       | रोश्री बोर्ड और सफ्त बोर्ड   | दस प्रतिशत मूल्यानुसार  |
| 4.       | मैरिन प्लाईवुड और एयरक्राफ्ट प्लाईवुड  | दस प्रतिशत मूल्यानुसार  |
| 5.       | लेपित कण बोर्ड जिनके अन्तर्गत एक या दोनों ओर अलंकारी लेप वाले कण बोर्ड नहीं हैं  | बीस प्रतिशत मूल्यानुसार |
| 6.       | अलेपित कण बोर्ड  | कुछ नहीं                |
| 7.       | पेटियों केबिनेट मीटर बक्से या फर्निचर-बटक के विनिर्माण की प्रक्रिया में कर्मशायन प्लाईवुड से, जिस पर शुल्क की समुचित रकम का संदाय कर्त किया गया है, बने अलंकारी प्लाईवुड | कुछ नहीं                |

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में, कर्मशायन प्लाईवुड से निम्नलिखित में भिन्न प्लाईवुड की सभी किस्में अभिप्रेत हैं—

- (1) अलंकारी प्लाईवुड ;
- (2) अग्निमह प्लाईवुड
- (3) उवाला सह प्लाईवुड ;
- (4) संरचनात्मक प्लाईवुड ;
- (5) मैरिन प्लाईवुड ;
- (6) एयरक्राफ्ट प्लाईवुड ; और
- (7) पूर्वोक्त मद सं० 16 के उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चाय की पेटियों के लिए प्लाईवुड।

[55/79]

**G.S.R. 137(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 16/68-Central Excises, dated the 1st February, 1968, the Central Government hereby exempts plywood and boards, specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling

under Item No. 16B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified against the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

| S. No. | Description   | Rate of duty                         |
|--------|---|--------------------------------------|
| 1      | 2   | 3                                    |
| 1.     | Commercial plywood  | Twenty per cent. <i>ad valorem</i> . |
| 2.     | Batten boards and block boards (including flush doors) having both faces of commercial plywood  | Twenty per cent. <i>ad valorem</i> . |
| 3.     | Insulation boards and Hard boards   | Ten per cent. <i>ad valorem</i> .    |
| 4.     | Marine plywood and Aircraft plywood   | Ten per cent. <i>ad valorem</i> .    |
| 5.     | Veneered particle boards excluding particle boards with decorative veneers on one or both faces   | Twenty per cent. <i>ad valorem</i> . |
| 6.     | Unveneered particle boards  | Nil                                  |
| 7.     | Decorative plywood made from commercial plywood on which the appropriate amount of duty has been paid, in the process of manufacture of radio cabinets, meter boxes or components of furniture. | Nil                                  |

**Explanation :—**In this notification, commercial plywood means all varieties of plywood other than—

- (i) decorative plywood;
- (ii) fire proof plywood;
- (iii) flame proof plywood;
- (iv) structural plywood;
- (v) marine plywood;
- (vi) aircraft plywood; and
- (vii) plywood for tea-chests falling under sub-item (i) of the aforesaid Item No. 16B.

[55/79]

सांकांनि० 138(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी ऐसे वर्णन के प्लाष्टवुड या बोर्ड को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) को प्रथम अनुसूची की मख सं० 16ख के अन्तर्गत आता है और जिसका विनिर्माण किसी अन्य वर्णन के ऐसे प्लाष्टवुड या बोर्ड से किया जाता है जिस पर शुल्क की समुचित रकम पहले ही मंचित कर दी गई है, उत्पाद-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जो उसके विनिर्माण में प्रयुक्त, यथास्थिति, प्लाष्टवुड या बोर्ड पर पहले ही संवत्त शुल्क की रकम के समतुल्य है।

[56/79]

**G.S.R. 138(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts plywood, or board of any description falling under Item No. 16B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured from plywood or board of another

description on which the appropriate amount of duty has already been paid, from so much of the duty of excise as is equivalent to the amount of duty already paid on plywood or board, as the case may be, used in its manufacture.

[56/79]

सांकांनि० 139(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 यख का अनुसरण करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 126/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, निवेश करती है कि कोर्स ग्रेन प्लाष्टवुड के विनिर्माण में प्रयुक्त प्रति हैंड प्रेस की प्रतिमास दर चार सौ बीस रुपए होगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना की कोई भी बात कोर्स ग्रेन प्लाष्टवुड के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी हैंड प्रेस को लागू नहीं होगी यदि हैंड प्रेस जलीय यंत्रों (हाइड्रोलिक जैक) की सहायता से चलाया जाता है।

[57/79]

**G.S.R. 139(E).**—In pursuance of rule 96ZB of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 126/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby directs that the rate per month per hand press employed in the manufacture of coarse grain plywood shall be four-hundred and twenty rupees.

**Explanation.**—Nothing contained in this notification shall apply to any hand press employed in the manufacture of coarse grain plywood, if the hand press is operated with the aid of hydraulic jacks.

[57/79]

सांकांनि० 140(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 131/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—  
उक्त सूचना में,—

- (क) “सारणी” शब्द, जहाँ-जहाँ वह आता है, के स्थान पर “सारणी 1” शब्द और अंक रखे जाएंगे;
- (ख) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

“सारणी 1

| क्रमसं०                       | वर्णन                                   | शुल्क की दर  |
|-------------------------------|---|--|
|                               |   | प्रति किलोग्राम  |
| 1                             | 2                                       | 3  |
| सैलूलीसी कता सूत और सूती सूत— |   |  |
| 1.                            | 25 से अनधिक काउन्ट का                   | डेढ़ पैसे प्रति काउन्ट   |
| 2.                            | 25 से अधिक किन्तु 35 से अनधिक काउन्ट का | चालीस पैसे घन 25 से अधिक पर चार पैसे प्रति काउन्ट                |
| 3.                            | 35 से अधिक किन्तु 45 से अनधिक काउन्ट का | पचासी पैसे घन 35 से अधिक पर नौ पैसे प्रति काउन्ट।                |
| 4.                            | 45 से अधिक किन्तु 55 से अनधिक काउन्ट का | एक सौ पञ्चहत्तर पैसे घन 45 से अधिक पर पन्द्रह पैसे प्रति काउन्ट। |
| 5.                            | 55 से अधिक काउन्ट का                    | छह पैसे प्रति काउन्ट।  |

(ग) परन्तुक में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) कामरील गुन्डियों में एकल या बहुल लच्छों वाले सूत की दशा में उच्चगुणीय शुल्क वह होगा जो इससे उपाखंड सारणी 2 में विनिर्दिष्ट है और वह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसा सूत हथकरघा के विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा सहकारी सोसाइटी या किसी संगठन द्वारा क्रय किया जाता है और ऐसे सूत के लिए भुगतान यथास्थिति ऐसी सहकारी सोसाइटी या संगठन द्वारा अपने बैंक खाते पर लिखे गए चेक द्वारा किया जाता है ;”

(घ) परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित सारणी अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“सारणी 2

| क्रम सं०                                  | वर्णन   | शुल्क की दर     |
|---|---|-----------------|
| 1   | 2   | 3               |
|   |   | प्रति किलोग्राम |
| सेल्युलोजी कना सूत और सूती सूत—           |   |                 |
| 1. 20 से अधिक काउन्ट का                   | कुछ नहीं  |                 |
| 2. 20 से अधिक किन्तु 25 से अधिक काउन्ट का | 20 से अधिक पर 1.5 पैसे प्रति काउन्ट               |                 |
| 3. 25 से अधिक किन्तु 35 से अधिक काउन्ट का | 10 पैसे घन 25 से अधिक पर 4 पैसे प्रति काउन्ट      |                 |
| 4. 35 से अधिक किन्तु 45 से अधिक काउन्ट का | 50 पैसे घन 35 से अधिक पर 8 पैसे प्रति काउन्ट      |                 |
| 5. 45 से अधिक किन्तु 55 से अधिक का        | 130 पैसे घन 45 से अधिक पर 14 पैसे प्रति काउन्ट    |                 |
| 6. 55 से अधिक काउन्ट का                   | 272.5 पैसे घन 55 से अधिक पर 5.5 पैसे प्रति काउन्ट |                 |

[58/79]

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 131/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification,—

(a) for the words “the Table”, wherever they occur, the word and figure “Table I” shall be Substituted;

(b) for the Table, the following Table shall be substituted, namely :—

“TABLE-I

| S. No.   | Description  | Rate of duty per kilogram |
|--|--|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                         |
| Cellulosic spun yarn and Cotton yarn—          |  |                           |
| 1. of counts not exceeding 25                  | one and a half paise per count                             |                           |
| 2. of counts exceeding 25 but not exceeding 35 | forty paise, plus four paise per count exceeding 25        |                           |
| 3. of counts exceeding 35 but not exceeding 45 | eighty-five paise, plus nine paise per count exceeding 35. |                           |

| 1  | 2   | 3 |
|--|---|---|
| 4. of counts exceeding 45 but not exceeding 55 | one hundred and seventy-five paise, plus fifteen paise per count exceeding 45 |   |
| 5. of counts exceeding 55                      | six paise per count.”   |   |

(c) in the proviso, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) in the case of yarn, single or multiple fold, in cross reel hanks, the duty leviable shall be as specified in Table II hereto annexed, subject to the condition that such yarn is purchased by a registered handloom co-operative society or any organisation set up or approved by the Government for the development of handlooms and payment for such yarn is made by cheque drawn by such co-operative society or organisation, as the case may be, on its own Bank Account;”

(d) after the proviso and before the explanation, the following Table shall be inserted, namely :—

“TABLE-II

| S. No.   | Description  | Rate of duty per kilogram |
|--|--|---------------------------|
| 1  | 2  | 3                         |
| Cellulosic spun yarn and Cotton yarn—          |  |                           |
| 1. of counts not exceeding 20                  |  | Nil                       |
| 2. of counts exceeding 20 but not exceeding 25 | 1.5 paise per count exceeding 20                     |                           |
| 3. of counts exceeding 25 but not exceeding 35 | 10 paise, plus 4 paise per count exceeding 25        |                           |
| 4. of counts exceeding 35 but not exceeding 45 | 50 paise, plus 8 paise per count exceeding 35        |                           |
| 5. of counts exceeding 45 but not exceeding 55 | 130 paise, plus 14 paise per count exceeding 45      |                           |
| 6. of counts exceeding 55                      | 272.5 paise, plus 5.5 paise per count exceeding 55.” |                           |

[58/79]

सा०का०नि० 141(अ).—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 136/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रथम परन्तुक के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) बिजलीकरण के फैब्रिकों की दशा में [जो खंड (ix) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों से भिन्न हैं] और हथकरघा फैब्रिकों की दशा में [जो खंड (i) और (ik) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों से भिन्न हैं] जब उनका दोनों ही दशाओं में किसी स्वतंत्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है तब सारणी में विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर के तीस प्रतिशत से इस शर्त के अधीन रहते हुए कम की जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी कमोतीम प्रतिशत मूलानुसार से अधिक नहीं होंगी।”

[58/79]

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the

following further amendments in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 136/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, namely :—

In the said notification, in the first proviso, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(ii) in the case of powerloom fabrics, [other than those covered by clause (ib)] and in the case of handloom fabrics [other than those covered by clause (i) and clause (ia)] when processed, in either case, by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent. of such rate, subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed three per cent. ad valorem.”.

[59/79]

सांकांति 142(अ).—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 226/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15 जुलाई, 1977 में निम्न-लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रथम परन्तुक के खंड (iii) के स्थान पर निम्न-लिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) विजलीकरण के फैब्रिकों की दशा में [जो खंड (ii) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों से भिन्न हैं] और हथकरघा फैब्रिकों की दशा में [जो खंड (i) और खंड (ii) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों से भिन्न हैं] जब उनका दोनों ही दशाओं में किसी स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा प्रसंस्करण किया जाता है तब गारणी में विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर ऐसी दर से तीस प्रतिशत में इस गत के अधीन रहने हुए कम की जाएगी कि ऐसी दर से ऐसी कमी तीन प्रतिशत मूलानुसार से अधिक नहीं होगी।”

[60/79]

सज्जा राम, उप सचिव

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 226/77- Central Excises, dated the 15th July, 1977, namely :—

In the said notification, in the first proviso, for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely :—

“(iii) in the case of powerloom fabrics [other than those covered by clause (ia)] and in the case of handloom fabrics [other than those covered by clause (i) and clause (ii)] when processed, in either case, by an independent processor, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by thirty per cent. of such rate, subject to the condition that such reduction from such rate shall not exceed three per cent. ad valorem.”.

[No. 60/79]

I.AJJA RAM, Dy. Secy.

सांकांति 143(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का

1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22छ के अन्तर्गत आने वाले फर्श के आवरणों को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु ऐसी छूट किन्हीं ऐसे फर्श के आवरणों को लागू नहीं होगी जिनके विनिर्माण में या के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया सामान्यतया शक्ति या माप की सहायता से या उसके बिना चालित मशीनों की सहायता से की जाती है

[61/79]

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts floor coverings falling under Item No. 22G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that no such exemption shall apply to any floor coverings in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily conducted with the aid of machines whether operated with or without the aid of power or steam.

[No. 61/79]

सांकांति 144 (अ).—फर्श के आवरण-अर्थात् : गलीचे, कार्पेटिंग और रंग ( जो माप की बनाई गई हों या नहीं ) वित्त विधेयक 1979 के खंड 29 द्वारा, जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22छ में विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

और यह आशयित नहीं है कि पूर्वोक्त विधेयक के अधिनियमन के लक्षित रहने के दौरान, (क) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 19, 21 और 22 तथा (ख) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 22छ के अधीन ऐसे फर्श के आवरणों पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ( विशेष महत्व के माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फर्श के आवरणों अर्थात् गलीचे, कार्पेटिंग और रंग ( जो माप की बनाई गई हों या नहीं ) को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19, 21 और 22 के अधीन तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क ( विशेष महत्व के माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[62/79]

टी० आर० रुस्तगी, अवर सचिव

G.S.R. 144(E).—Whereas floor coverings, namely, carpets, carpeting, and rugs, (made up or not), have been specified in Item No. 22G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), by clause 29 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law;

And whereas it is not intended that, pending the enactment of the Bill aforesaid, duties of excise should be levied and collected on such floor coverings both under (a) Item Nos. 19, 21 and 22 of the said First Schedule, and (b) under Item No. 22G of the said First Schedule.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts, until the enactment of the Finance Bill, 1979, floor coverings, namely, carpets, carpeting, and rugs, (made up or not), from the whole of the duty of excise leviable thereon under Items Nos. 19, 21 and 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

[No. 62/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सांका०नि० 145 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 की 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23क की उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले कांच के गैलनों, कांच के ग्लोबों और लैंपों तथा लान्पटनों के लिए भिमनियों की, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना वस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[63/79]

लज्जाराम, उप सचिव

G.S.R. 145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts glass shells, glass globes and chimneys for lamps and lanterns falling under sub-item (3) of Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. ad valorem.

[No. 63/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सांका०नि० 146 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 185/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 नवम्बर, 1962 को अधिक्रान्त करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23क के अन्तर्गत आने वाली कांच की वस्तुओं और कांच के सामान को, यदि उनका विनिर्माण उक्त मद के अन्तर्गत आने वाले कांच से किया जाता है और जिस पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की समुचित रकम का संवाय कर दिया गया है तो, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त कांच पर वस प्रकार संवत् शुल्क के समतुल्य है।

[64/79]

टी० प्रार० रुस्तगी, अव्वर सचिव

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 185/62-Central Excises, dated the 3rd November, 1962, the Central Government hereby exempts articles of glass and glassware, falling under Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), if made from glass falling under the said Item and on which the appropriate amount of duty of excise or the additional

duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as the case may be, has been paid, from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty so paid on that glass.

[64/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सांका०नि० 147 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 37/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23अ की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले सेनिटरी के सामान को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पैंतीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[65/79]

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 37/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, the Central Government hereby exempts sanitaryware falling under sub-item (2) of Item No. 23B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty-five per cent. ad valorem.

[65/79]

सांका०नि० 148 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 45/74 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1974 को अधिक्रान्त करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29क के अन्तर्गत आने वाले 165 लिटर से अधिक की क्षमता वाले धरेलू प्रशीतकों (रेफ्रिजरेटर्स) को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना चासीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[66/79]

लज्जाराम, उप सचिव

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 45/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974, the Central Government hereby exempts domestic refrigerators, falling under Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), of a capacity not exceeding 165 litres from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of forty per cent. ad valorem.

[66/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सांकां. 149 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 190/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 को अधिष्ठापित करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं. 30 के अन्तर्गत आने वाले शक्ति चालित पम्पों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पांच प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[67/79]

जी के पिल्ले, अवसर सचिव

**G.S.R. 149(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 190/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts power driven pumps falling under Item No. 30A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent ad valorem.

[67/79]

G. K. PILLAI, Under Secy.

सांकां. 150 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 मम का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 87/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 को अधिष्ठापित करते हुए, निवेश करती है, कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं. 31 के अन्तर्गत आने वाली और किसी विनिर्माता द्वारा उत्पादित विद्युत् स्टोरेज बैटरियों की प्लेटों पर उद्ग्रहणीय शुल्क की दर सात सौ पैंतीस रुपए प्रति मास होगी :

परन्तु जहाँ विद्युत् स्टोरेज बैटरियों की प्लेटों का उत्पादन किसी विनिर्माता द्वारा अपने कारखाने में विद्युत् बैटरियों के विनिर्माण में संघटक पुर्जों के रूप में प्रयोग के लिए किया जाता है वहाँ विद्युत् स्टोरेज बैटरियों की प्लेटों पर शुल्क की दर चार सौ पचास रुपए प्रति मास होगी।

[68/79]

**G.S.R. 150(E).**—In pursuance of rule 96-YY of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 87/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, the Central Government hereby directs that the rate of duty leviable on plates of electric storage batteries, falling under Item No. 31 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and produced by any manufacturer shall be rupees seven hundred and thirty-five per month :

Provided that where such plates of electric storage batteries are produced by a manufacturer for use as a component part in the manufacture of electric batteries in his factory, the rate of duty on the plates of electric storage batteries shall be rupees four hundred and fifty per month.

[68/79]

सांकां. 151 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं. 32 की उपमब (2) के अन्तर्गत आने वाली फ्लोरोसेंट प्रकाश ट्यूबों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना तीस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[69/79]

**G.S.R. 151(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts fluorescent lighting tubes falling under sub-item (2) of Item No. 32 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of thirty per cent. ad-valorem.

[69/79]

सांकां. 152 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं. 33 के अन्तर्गत आने वाली तांबे या एल्युमिनियम से बनी वितर्पी तारों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[70/79]

**G.S.R. 152(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts winding wires made of copper or aluminium, falling under sub-item (i) of Item No. 33B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. advalorem.

[ 70/79]

सांकां. 153 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं. 34 की उपमब I(1) के अन्तर्गत आने वाले 75 घन सेंटीमीटर से अधिक क्षमता के इंजन के दो पहिये वाले मोटर यानों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[71/79]

नजाराह, उप सचिव

**G.S.R. 153(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts two-wheeled motor vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944



(1 of 1944), of engine capacity not exceeding 75 cubic centimetres from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. ad valorem.

[71/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा० का० नि० 154 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 83/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 मई, 1977 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले किसी ऐसे डम्पर को, —

(क) जिसका शुद्ध भार (जिसके अन्तर्गत मायभार नहीं है) घाट दन से अधिक है और जो वस दन या अधिक के किसी अधिकतम मायभार के लिए परिकल्पित है; और

(ख) जो राजमार्ग से भिन्न प्रयोग के लिए परिकल्पित है,

उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना घाट प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[72/79]

जी० के० पिल्ले, धर सचिव

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 83/77 dated 7th May, 1977, the Central Government hereby exempts any dumper falling under Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), —

(a) of which the net weight (excluding pay-load) is more than eight tonnes and which is designed for a maximum pay-load of ten tonnes or more; and

(b) which is designed for use off the high way, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem.

[72/79]

G. K. PILLAI, Under Secy

सा० का० नि० 155 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाली तीन पहिये वाली सैलून कारों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट देती है, अर्थात्:—

(क) ऐसे अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की पक्ति से नीचे का न हो, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान हो जाता है कि ऐसी तीन पहिये वाली सैलून कारें केवल टैक्सी के रूप में प्रयोग के लिए आयेगी हैं; और

(ख) ऐसे विनिर्माता द्वारा शुल्क का संदाय किए जाने के पश्चात् तीन पहिये वाली सैलून कार की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बड़ाई गई अवधि के भीतर जिसे उक्त अधिकारी अनुमति करे, सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से इस भाष्य का प्रमाणपत्र उस विनिर्माता द्वारा उक्त अधिकारी को दिया

जाता है कि ऐसी प्रत्येक तीन पहिये वाली सैलून कार केवल टैक्सी के रूप में प्रयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत की गई है।

[73/79]

टी० आर० रुस्तगी, धर सचिव

G.S.R. 155(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts Three-wheeled saloon cars, falling under sub-item (1) of Item No. 341 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifteen per cent. ad valorem, subject to the following conditions, that —

(a) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said officer) is satisfied that such three-wheeled saloon cars are required for use solely as taxis; and

(b) the manufacturer furnishing to the said officer a certificate from an officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the three-wheeled saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said officer may allow, to the effect that each such three-wheeled saloon car has been registered for use solely as a taxi.

[73/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

सा० का० नि० 156 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बोमा विभाग) की अधिसूचना सं० 153/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों के, जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर भी हैं; पुर्जों और उपकरणों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब कि:—

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए और ऐसी शर्तों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए जो उनके द्वारा विहित की जाएं, कि पूर्वोक्त पुर्जों और उपकरणों को मोटर यानों और ट्रैक्टरों के, जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर भी हैं, संयोजित पुर्जों, अर्थात्, आटोमोबाइल इंजिन, विस्तृत संयोजन, ब्रेक संयोजन और क्लच संयोजन के, विनिर्माण में प्रयोग में लाता आगमित है और ऐसे संयोजित पुर्जों का पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों के, जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर भी हैं, विनिर्माताओं द्वारा मूल उत्तर के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया जाता है; और

(2) ऐसे किन्हीं पुर्जों को बाबत किसी रियायत के सम्बन्ध में, उक्त नियमों के अध्याय 10 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण-संयोजित पुर्जों के ऐसे विनिर्माताओं द्वारा किया गया हो।

[74/79]

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 153/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971, the Central Government hereby exempts parts and accessories of motor vehicles and tractors including trailers falling under Item No. 34A of the First Schedule

to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise and subject to such conditions and procedure prescribed by him that the aforesaid parts or accessories are intended to be used in the manufacture of assembled components of motor vehicles and tractors including trailers, such as Automobile Engines, Piston Assemblies, Break Assemblies and Clutch Assemblies and such assembled components are utilised as original equipment parts by the manufacturers of motor vehicles and tractors including trailers falling under Item No. 34 of the aforesaid First schedule; and

(ii) in relation to any concession in respect of any such parts, the procedure set out in Chapter X of the said rules is followed by such manufacturers of assembled parts.

[74/79]

सांकां० 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 101/71-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को अधीन करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों के जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, पुर्ण और उपसाधनों की, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि,—

(1) किसी ऐसे अधिकारी के जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की पंक्ति के नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाए कि पूर्वोक्त पुर्ण और उपसाधनों की, पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों के, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, विनिर्माणों द्वारा मूल उपकरण के पुर्ण के रूप में प्रयोग में लाना आशयित है; और

(2) ऐसे किन्हीं पुर्ण और उपकरणों की बाबत किसी रियायत के सम्बन्ध में उक्त नियमों के अध्याय 10 में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।

[75/79]

लज्जा राम, उप सचिव

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance No. 101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers falling under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that—

(i) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the aforesaid parts or accessories are intended to be used as original equipment parts by the manufacturers of motor vehicles and tractors including trailers falling under Item No. 34 of the aforesaid First Schedule; and

(ii) in relation to any concession in respect of any such parts or accessories, the procedure set out in Chapter X of the said rules is followed.

[75/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सांकां० 158(अ).—मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, के कुछ पुर्ण और उपसाधन वित्त विधेयक, 1979 के खंड 29 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

और यह आशयित नहीं है कि पूर्वोक्त विधेयक के अधिनियम, के अन्तर्गत रहने के दौरान, मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, के ऐसे पुर्ण और उपसाधनों पर, जो उक्त मद संख्या 34 में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, किन्तु उक्त मद के अधीन वर्गीकृत किए जा सकते हैं, उक्त मद में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वित्त विधेयक का अधिनियमन होने तक, मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, के ऐसे पुर्ण और उपसाधनों की जो उक्त मद सं० 34 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है जिसका घाट प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[76/79]

G.S.R. 158(E).—Whereas certain parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers have been specified under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) by clause 29 of the Finance Bill 1979;

And whereas it is not intended that, pending the enactment of the Bill aforesaid, duties of excise should be levied and collected on such parts and accessories of motor vehicles and tractors including trailers as have not been specified in the said Item No. 34A but classifiable under the said Item, at the rate of duty specified in the said Item;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts until the enactment of the said Finance Bill, such parts and accessories of motor vehicles and tractors including trailers as have not been specified in the said Item No. 34A, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem.

[76/79]

सांकां० 159 (अ).—मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, के कुछ पुर्ण और उपसाधन वित्त विधेयक, 1979 के खंड 29 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रेलर भी हैं, के ऐसे पुर्ण और उपसाधनों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) जो मद सं० 34 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं किए गए हैं किन्तु उक्त मद के अधीन वर्गीकृत किए जा सकते हैं और जिन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 76/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 लागू होती है तथा जिसकी 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक लाख पञ्चमीस हजार रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक एक या अधिक कारखानों से विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपयोग के लिये निकासी की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु यह तब जब कि किसी अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासी किए जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—किसी पूंजी विनिधान का मूल्य प्रवधारण करने के लिये प्रयोजनों के लिए, ऐसे समय पर जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के मूल्य का प्रवधारण करने के प्रयोजनों के लिये ऐसे कारखाने के भीतर जिसमें उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, आबद्ध उपभोग के लिये निकासी किए गए उक्त माल का मूल्य हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 3—इस अधिसूचना में, "कारखाना" शब्द का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) में है।

2 इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को उस दशम में लागू नहीं होगी जिसमें 1 अप्रैल, 1978 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपभोग के लिये निकासी किए गए उक्त माल का कुल मूल्य सत्तर लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो गया था।

[77/79]

जी० के० पिल्ले, अवर सचिव

**G.S.R. 159(E).**—Whereas certain parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers have been specified under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) by clause 29 of the Finance Bill, 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts parts and accessories of motor vehicles and tractors, including trailers, as have not been specified in the said Item No. 34A but classifiable under the said Item (hereinafter referred to as the said goods) and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 76/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, applies and cleared for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh and twenty-five thousand during the period commencing on the 1st day of March, 1979 and ending on the 31st day of March, 1979, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs.

**Explanation I.**—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

**Explanation II.**—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, the value of the said goods cleared for captive consumption within the factory in which the said goods are manufactured shall not be taken into account.

**Explanation III.**—In this notification, the expression "factory" has the meaning assigned to it in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer if the total value of the said goods cleared for home consumption by him or on his behalf from one or more factories during the period commencing on the 1st day of April, 1978 and ending on the 28th day of February, 1979 had exceeded rupees twenty-seven lakhs and fifty thousand.

[77/79]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**सा० का० नि० 160(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 64/60 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 1960 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 की उपमद II(i) के अंतर्गत आने वाली उद्योगोपार्जित सिनेमा फिल्मों को, उन पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना, यदि उनकी चौड़ाई, 30 मिमी० या अधिक है तो छठ पैसे प्रति मीटर और यदि उनकी चौड़ाई 30 मि०मी० से कम है तो पांच पैसे प्रति मीटर, से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट केवल ऐसी फिल्मों को ही लागू होगी जो केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा शैक्षिक उद्योगोपार्जित या फिल्में के रूप में प्रमाणित की जाती हैं।

[78/79]

टी० आर० रुस्तगी, अवर सचिव

**G.S.R. 160(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64/60-Central Excises, dated the 20th April, 1960, the Central Government hereby exempts cinematograph films, exposed, as described in sub-item II(i) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight paise per metre if they are of a width of 30 mm or higher, and of five paise per metre if they are below 30 mm in width :

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such films as are certified by the Central Board of Film Censors as newsreels or films of educational value.

[78/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

**सा० का० नि० 161 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37 की उपमद (i) के अंतर्गत आने वाले ग्रामोफोन रिकार्ड प्लेयर रिकार्ड प्लेयर डैक या रिकार्ड चेंजर डैक को उस पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है यदि—

- (1) उपरोक्त माल का किसी ऐसे औद्योगिक एकक में विनिर्माण किया जाता है जिसकी स्थापना ऐसे अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो समाधान हो जाता है कि केवल संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि दस लाख रुपये से अधिक नहीं है ; और

- (2) ऐसे माल का कुल मूल्य जिसकी निकासी यदि कोई हो, विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए की जाती है, पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की निम्नतर दर ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी को ही लागू होगी :

परन्तु यह और कि शुल्क की उक्त निम्नतर दर 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए दो लाख रुपये से अधिक मूल्य तक की प्रथम निकासी को ही इस शर्त के अधीन रहते हुए लागू होगी कि 1 अप्रैल, 1978 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस प्रकार निकासी किए गए उक्त माल का कुल मूल्य पैंतालीस लाख रुपये से अधिक नहीं था।

[79/79]

जी० के० पिल्लै, अवसर सचिव

**G.S.R. 161(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts gramophones, record players, record playing decks or record changer decks falling under sub-item (i) of Item No. 37A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent ad valorem, if—

- (i) the above goods are manufactured in an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of capital investment made from time to time on plant and machinery only is not more than rupees ten lakhs; and

- (ii) the total value of such goods cleared, if any, for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during the preceding financial year did not exceed rupees fifty lakh :

Provided that the lower rate of duty as specified in this notification shall apply only to the first clearances for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories upto a value not exceeding rupees twenty-five lakhs during a financial year :

Provided further that the said lower rate of duty shall, during the period commencing from the 1st day of March, 1979 and ending on the 31st day of March, 1979, apply only to the first clearances for home consumption, by or on behalf of such manufacturer, from one or more factories, upto a value not exceeding rupees two lakhs subject to the condition that the total value of the said goods so cleared during the period commencing on the 1st day of April, 1978 and ending on 28th day of February, 1979 did not exceed rupees forty-five lakhs.

[79/79]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**सा० का० नि० 162 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37क के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्रामोफोन रिकार्डों को, जो सामान्यतया "एल० पी०" अथवा लांग प्लेयिंग रिकार्ड और "ई० पी०" अथवा एक्सटेंडेड

प्लेयिंग रिकार्ड के नाम से जाने वाले रिकार्डों से भिन्न हैं उन पर उच्चहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

[80/79]

लज्जा राम, उप सचिव

**G.S.R. 162(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all gramophone records, other than those commonly known as "L. P." or long playing records and "E. P." or extended playing records, falling under Item No. 37A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[80/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

**सा० का० नि० 163 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 154/75 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 3 जून, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) सारणी में स्तम्भ (3) में आने वाले "4.60" और "4.30" अंकों के स्थान पर क्रमशः "9.20" और "4.50" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) परन्तुक्त में,—

(क) खंड (i) में,—

- (I) "एक रुपया वस पैसे" शब्दों के स्थान पर "दो रुपये नब्बे पैसे" शब्द रखे जाएंगे ;

- (II) "4.30 रुपये" अंको और शब्द, जहाँ-जहाँ ये आते हैं, के स्थान पर "4.50 रुपये" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

- (III) उपखंड (ग) के नीचे के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ;

- (ख) खंड (iv) के नीचे स्पष्टीकरण में, खंड (ii) का लोप किया जाएगा।

[81/79]

**G.S.R. 163(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 154/75-Central Excises, dated the 3rd June 1975, namely :—

In the said notification,—

- (I) in the Table, for the figures "4.60" and "4.30", occurring in column (3), the figures "9.20" and "4.50" shall, respectively, be substituted ;

- (ii) in the proviso,—

(a) in clause (i),

- (I) for the words "one rupee and ten paise", the words "two rupees and ninety paise" shall be substituted ;

- (II) for the letters and figures "Rs. 4.30", wherever they occur, the letters and figures "Rs. 4.50" shall be substituted ;

- (III) the Explanation below sub-clause (c) shall be omitted ;

- (b) in the Explanation appearing below clause (iv), clause (ii) shall be omitted.

[81/79]

**सा० का० नि० 164 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 43 के अंतर्गत आने

वाली क्लोम घुनित पूनियों को, यदि उनका प्रयोग उक्त अनुसूची की उक्त मद सं० 43 के अंतर्गत आने वाले ऊन चूड़ों के बनिर्माणा में किया जाता है और ऐसे ऊन चूड़ों पर उत्पाद शुल्क पूर्णतः या भागत उद्ग्रहणीय है तो उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि उक्त ऊन चूड़ों के उत्पादन कारखाने में भिन्न किसी स्थान पर उत्पादित उक्त क्लोम घुनित पूनियों के सम्बन्ध में उक्त नियमों के नियम 56क में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

[82/79]

टी० आर० रुस्तगी, अवर सचिव

**G.S.R. 164(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts carded gilled slivers falling under Item No. 43 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon, if used in the manufacture of wool tops falling under the said Item No. 43 of the said Schedule and the duty of excise is leviable whether in whole or part on such wool tops .

Provided that in respect of the said carded gilled slivers produced elsewhere than in the factory of production of the said wool tops, the procedure set out in rule 56A of the said rules is followed.

[82/79]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.

**सा० का० नि० 165 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 47 के अंतर्गत आने वाले चालीस हजार रुपये से अधिक मूल्य तक के सभी प्रकार के तारों और उनकी चाबियों को, जिनकी निकासी किसी बनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घरेलू उपभोग के लिए की जाती है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट किसी ऐसे बनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसकी 1 अप्रैल, 1978 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी 13.75 लाख रुपये से अधिक थी ।

[83/79]

**G.S.R. 165(E).**—In exercise of powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts locks, all sorts, and keys therefor, falling under Item No. 47 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) upto a value not exceeding rupees forty thousand cleared for home consumption during the period commencing on 1st day of March, 1979 and ending on 31st day of March, 1979, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories :

Provided that the exemption contained in this notification shall not be applicable to a manufacturer whose clearances of the said goods, for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on the 1st day of April, 1978 and ending on the 28th day of February, 1979, had exceeded Rs. 13.75 lakhs.

[83/79]

**सा० का० नि० 166 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 59 के अंतर्गत आने वाले चालीस हजार रुपये से अधिक मूल्य तक के दूधब्रशों को जिनकी निकासी किसी बनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घरेलू उपभोग के लिए की जाती है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट किसी ऐसे बनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसकी 1 अप्रैल, 1978 को प्रारम्भ होने वाली और 28 फरवरी, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी 13.75 लाख रुपये से अधिक थी ।

[84/79]

**G.S.R. 166(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts toothbrushes, falling under Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a value not exceeding rupees forty thousand cleared for home consumption during the period commencing on the 1st day of March, 1979 and ending on 31st day of March, 1979, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories :

Provided that the exemption contained in this notification shall not be applicable to a manufacturer whose clearances of the said goods, for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on the 1st day of April, 1978, and ending on the 28th day of February, 1979, had exceeded Rs. 13.75 lakhs.

[84/79]

**सा० का० नि० 167 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अंतर्गत आता है और जिसका बनिर्माण किसी कारखाने में भिन्न किसी स्थान पर किया जाता है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

**स्पष्टीकरण :—**इस अधिसूचना में, "कारखाना" शब्द का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2(3) में है ।

[85/79]

**G.S.R. 167(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts all goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured in any premises other than in a factory from the whole of the duty of excise leviable thereon.

**Explanation :**

In this notification, the expression "factory" has the meaning assigned to it in section 2(m) of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

[85/79]

सांकांनि० 168 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले साइकिलों और साइकिलों के पुर्जों को, उन पर उदग्रहणीय उनमें उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पांच प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[86/79]

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cycles and parts of cycles falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent *ad valorem*.

[86/79]

सांकांनि० 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 191/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, मद (14) का लोप किया जाएगा।

[87/79]

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 191/73 Central Excises, dated the 3rd November, 1973, namely:—

In the said notification, item (14) shall be omitted.

[87/79]

सांकांनि० 170(अ).—विद्युत रोधक और विद्युत् रोधी फिटिंग तथा ऐसे रोधक और रोधी फिटिंग के पुर्जों का वित्त विधेयक, 1979 के खंड 29 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15क, 23क और 23ख में से लोप करने का प्रस्ताव है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त विधेयक, 1979 के अधिनियमन तक, विद्युत रोधक, विद्युत रोधी फिटिंग तथा ऐसे रोधक और रोधी फिटिंग के पुर्जों को,—

(क) जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15 क के अंतर्गत आते हैं, उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से; और

(ख) जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23क अथवा मद सं० 23ख के अंतर्गत आते हैं, उन पर उदग्रहणीय उनमें उत्पाद-शुल्क से जितना आठ प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, छूट देती है।

[88/79]

G.S.R. 170(AE).—Whereas electrical insulators and electrical insulating fittings and parts of such insulators and insulating fittings are proposed to be omitted from Items Nos. 15A, 23A and 23B of the First Schedule to the Central Excises and Salt

Act, 1944 (1 of 1944), by clause 29 of the Finance Bill 1979;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, until the enactment of the Finance Bill, 1979, electrical insulators, electrical insulating fittings and parts of such insulators and insulating fittings.—

(a) falling under Item No. 15A of the First Schedule to the said Act, from the whole of the duty of excise leviable thereon; and

(b) falling under Item No. 23A or Item No. 23B of the First Schedule to the said Act, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent *ad valorem*.

[88/79]

सांकांनि० 171(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 176/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977 को अधिमान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले ऐसे माल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् घरेलू उपयोग के लिए की जाती है,—

(क) पन्द्रह लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की दशा में, उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से; और

(ख) पन्द्रह लाख रुपये के मूल्य की उक्त प्रथम निकासी के ठीक अगली निकासी की दशा में (जो पन्द्रह लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य के उक्त माल की निकासी है), उस पर उदग्रहणीय उनमें उत्पाद-शुल्क से जितना चार प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, छूट देती है:

परन्तु यह तब जब कि किसी अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक जिसमें निकासी किए जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किए गए पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण 1—किसी पूंजी विनिधान का मूल्य अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे समय पर जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारखाने के भीतर जिसमें उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, आबद्ध उपभोग के लिए निकासी किए गए उक्त माल का मूल्य हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3—इस अधिसूचना में, 'कारखाना' शब्द का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (इ) में है।

2. इस अधिसूचना की कोई बात किसी विनिर्माता को उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक या अधिक कारखानों से उसके द्वारा या उसकी ओर से घरेलू उपयोग के लिए

निकासी किए गए उक्त माल का कुल मूल्य तीस लाख रुपये अधिक हो गया था।

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 से प्रवृत्त होगी।

[89/79]

**G.S.R. 171(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 176/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, the Central Government hereby exempts goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said goods) and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories,—

- (a) in the case of first clearances of the said goods up to an aggregate value not exceeding rupees fifteen lakhs, from the whole of the duty of excise leviable thereon; and
- (b) in the case of the clearances (being clearances of the said goods of an aggregate value not exceeding rupees fifteen lakhs), immediately following the said first clearances of the value of rupees fifteen lakhs, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of four per cent. *ad valorem*.

Provided that an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees ten lakhs.

**Explanation I.**—For the purposes of determining the value of any capital investment, only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account.

**Explanation II.**—For the purposes of determining the value of clearances under this notification, the value of the said goods cleared for captive consumption within the factory in which the said goods are manufactured shall not be taken into account.

**Explanation III.**—In this notification, the expression 'factory' has the meaning assigned to it in clause (m) of section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948).

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer, if the total value of the said goods cleared for home consumption by him or on his behalf from one or more factories in the preceding financial year had exceeded rupees thirty lakhs.

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1979.

(89/79)

**सांकांति० 172(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 37 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 120/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1978 को अधिस्तान करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची में वर्णित सभी माल को पूर्वोक्त वित्त अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त विशेष उत्पाद शुल्क से, 1 मार्च, 1979 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है।

[90/79]

**G.S.R. 172(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (4) of section 37 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 120/78-Central Excises, dated the 12th May, 1978, the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of section 37 of the Finance Act aforesaid, for the period commencing on the 1st day of March, 1979 and ending on the 31st day of March, 1979.

[90/79]

**सांकांति० 173(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 के उपखंड (4), जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1, 2(1), 3, 10, 11, 11क(1), 11क(3), 11क(4), 11क(5), 11ग, 12, 14कक(2), 14गग, 15ग, 16, 16कक, 18, 18क, 18ख, 18ग, 18घ, 18ङ, 18च, 19, 20, 21, 22, 22क, 22कक, 22ख, 22ज, 23, 25, 26, 26क, 26कक, 26ख, 27, 27क, 28, 33कक, 37, 39, 41, 42 और 43 में समाविष्ट माल से चिन्न उक्त प्रथम अनुसूची में उपवर्णित सभी माल को वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[91/79]

**G.S.R. 173(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 32 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all the goods set forth in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than those comprised in Items Nos. 1, 2(1), 3, 10, 11, 11A(1), 11A(3), 11A(4), 11A(5), 11C, 12, 14AA(2), 14HH, 15C, 16, 16AA, 18, 18A, 18B, 18D, 18E, 18F, 19, 20, 21, 22, 22A, 22AA, 22B, 22F, 23, 25, 26, 26A, 26AA, 26B, 27, 27A, 28, 33AA, 37, 39, 41, 42 and 43 of the said First Schedule, from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause (1) of clause 32 of the Finance Bill, 1979.

[91/79]

**सांकांति० 174(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12, 12क और 191क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अग्रां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क के अधिस्तान किया गया है और अग्रां ऐसे माल का भारत के बाहर किसी देश या राज्य भेज को जो नेपाल और भूटान से भिन्न हो, निर्यात करने पर, केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 12 और 12क के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने उक्त नियम 191क के अधीन घोषणा द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर किए गए उत्पाद-शुल्क पर कोई रिबेट दिए जाने की अनुज्ञा दी है, वहां विशेष उत्पाद-शुल्क

कारिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन विया जाएगा जो शर्तें उत्पाद-शुल्क के रिबेट को लागू हैं।

[92/79]

**G.S.R. 174(E).**—In exercise of the powers conferred by rules 12, 12A and 191A of the Central Excise Rules, 1944 read with clause 32 of the Finance Bill, 1979 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to a special duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India, other than Nepal and Bhutan, the Central Government, by a notification under the said rules 12 and 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under the said rule 191A, as the case may be, has permitted a rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the special duty of excise shall also be made subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[92/79]

**सांकांनि० 175(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि जहां कोई माल पूर्वोक्त खंड के अधीन विशेष उत्पाद-शुल्क दिये जाने के दायित्वाधीन है और जहां केन्द्रीय सरकार ने, उक्त नियम 191-ख के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क माल से बंधपत्राधीन विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दी है, वहां ऐसे उत्पाद शुल्क माल से बंधपत्राधीन ऐसी वस्तुओं का विनिर्माण भी पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन अनुज्ञेय होगा जो पूर्वोक्त नियम 191-ख के अधीन ऐसे विनिर्माण को लागू हैं।

[93/79]

**G.S.R. 175(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 191B of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 32 of the Finance Bill, 1979 which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191B, permitted the manufacture of specified articles, in bond, from specified excisable goods, manufacture of such articles, in bond, from such excisable goods shall also be permissible for the purposes of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the aforesaid rule 191B.

[93/79]

**सांकांनि० 176(अ).**—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 के उपखंड (4) [जो खंड, अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है] के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद-शुल्क माल को जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 91/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में विनिर्दिष्ट है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके विनिर्माण में प्रयुक्त ऐसे अन्य उत्पाद-शुल्क माल पर (जिसे इसमें इसके पश्चात्

मध्यवर्ती उत्पाद कहा गया है) पहले ही संदत्त विशेष उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है :

परन्तु इस अधिसूचना में भविष्य में छूट केवल उन्हीं विनिर्दिष्ट माल को लागू होगी जिनकी वाहन केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से उन्हें छूट देते हुए जितना सम्बन्धित अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती उत्पाद पर पहले ही संदत्त उत्पाद शुल्क की रकम के समतुल्य है, पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।

[94/79]

जी० के० पिल्लै, अवर सचिव

**G.S.R. 176(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 32 of the Finance Bill, 1979 [which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law] the Central Government hereby exempts excisable goods specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 91/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, from so much of the special duty of excise leviable thereon as is equivalent to the special duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as the intermediate products) used in their manufacture :

Provided that the exemption contained in this notification shall be applicable only to those specified goods, in respect of which, notifications under sub-rule (1) of rule 8 of the aforesaid rules have been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

[94/79]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**सांकांनि० 177(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें उपाखंड सारणी के स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क माल को (ऐसे माल को इसमें इसके पश्चात् "अन्तिम उत्पाद" कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की ऐसी मद सं० के अन्तर्गत आते हैं जो उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जो, यथास्थिति,—

(क) पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क धन ऐसे विशेष उत्पाद-शुल्क जो वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत किया गया है या वित्त विधेयक, 1979 के खंड 32 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय है जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है,

प्रथम

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, की रकम के समतुल्य है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वर्णन के ऐसे माल पर (ऐसे माल को इसमें इसके पश्चात् "निवेश" कहा गया है) पहले ही संदत्त कर दी गई है, जो पूर्वोक्त प्रथम अनुसूची की ऐसी मद सं० के अन्तर्गत आते हैं जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) के सामने की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं :



परन्तु,—

- (i) उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में किसी विशिष्ट क्रम संख्या के सामने उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निवेश, उक्त सारणी की उक्त क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयोग किए जाने हैं ;
- (ii) जहां किसी अन्तिम उत्पाद पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, अन्तिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त निवेश पर संदस, यथास्थिति, ऐसे उत्पाद-शुल्क की रकम (जिसके अन्तर्गत पूर्वोक्त विशेष उत्पाद-शुल्क भी है) या पूर्वोक्त अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की रकम से कम है वही छूट की मात्रा अन्तिम उत्पाद पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क तक निर्बंधित होगी; और
- (iii) इस अधिसूचना के अधीन छूट के सम्बन्ध में, पूर्वोक्त नियमों के नियम 56-क में उल्लिखित प्रक्रिया निम्नलिखित है।

## सारणी

| क्र. सं. | उक्त प्रथम अनु-सूची की मद सं. | निवेश का वर्णन                         | उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं. | अन्तिम उत्पाद का वर्णन  |
|----------|-------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1        | 2                             | 3                                      | 4                            | 5   |
| 1.       | 16                            | टायर और ट्यूब                          | 34ख                          | फोर्कलिफ्ट ट्रक और प्लेटफार्म ट्रक।                                     |
| 2.       | 31                            | विद्युत स्टोरेज बैटरियां               | 34ख                          | फोर्कलिफ्ट ट्रक और प्लेटफार्म ट्रक।                                     |
| 3.       | 27                            | एल्युमिनियम                            | 29 क                         | प्रशीतन और वातानुकूलन साधित्र और मशीनें, सभी प्रकार की और उनके पुर्जे।  |
| 4.       | 26 क                          | नाबे के पाइप और ट्यूब                  | 29 क                         | प्रशीतन और वातानुकूलन साधित्र और, मशीनें, सभी प्रकार की और उनके पुर्जे। |
| 5.       | 26 कक                         | हस्पात की चद्दरें और प्लेटें           | 29 क                         | प्रशीतन और वातानुकूलन साधित्र और मशीनें, सभी प्रकार की और उनके पुर्जे।  |
| 6.       | 26 कक                         | हस्पात की चद्दरें                      | 28 क                         | विद्युत ठपे और पटलिकाएँ, सभी प्रकार की।                                 |
| 7.       | 28 क                          | विद्युत ठपे और पटलिकाएँ, सभी प्रकार की | 30                           | विद्युत मोटरें, सभी प्रकार की और उनके पुर्जे।                           |
| 8.       | 26 कक                         | हस्पात के बिल्लेट और छड़े              | 63                           | सार के रस्ते।   |

| 1  | 2     | 3                            | 4  | 5   |
|----|-------|------------------------------|----|---|
| 9. | 26 कक | हस्पात की चद्दरें और प्लेटें | 48 | तिजोरियाँ, मज-बूत पेटियाँ, तिजोरिनुमा कमरों के अस्तरी भाग, और तिजोरी-नुमा बरतारों तथा पकड़ी और कागजपत्र रखने की पेटियाँ और बैसी ही चीजें। |

[95/79]

लज्जाराम, उप सचिव

**G.S.R. 177(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (5) of the Table hereto annexed (such goods being hereinafter referred to as "final products") and falling under such Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of—

(a) the duty of excise leviable under the aforesaid First Schedule plus the special duty of excise, levied under sub-section (1) of section 37 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), or leviable under sub-clause (1) of clause 32 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, OR as the case may be,

(b) the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

already paid on the goods of the description specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table (such goods being hereinafter referred to as "inputs") and falling under such Item No. of the aforesaid First Schedule as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table :

Provided that;—

(i) the inputs specified in column (3) of the said Table against a particular serial number in column (1) thereof are used in the manufacture of the final products specified in the corresponding entry in column (5) of the said Table against the said serial number ;

(ii) where the duty of excise leviable on any final product is less than the amount of duty of excise (including special duty of excise aforesaid) or the amount of additional duty aforesaid, as the case may be, paid on the inputs used in the manufacture of such final product, the extent of exemption shall be restricted to the duty of excise leviable on such final product; and

(iii) in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the aforesaid rule is followed

THE TABLE

| S. No. | Item No. of the said First Schedule | Description of inputs                           | Item No. of the said First Schedule | Description of final products  |
|--------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3   | 4                                   | 5  |
| 1.     | 16                                  | Tyres and Tubes                                 | 34B                                 | Forklift trucks and platform trucks.   |
| 2.     | 31                                  | Electric storage batteries                      | 34B                                 | Forklift trucks and platform trucks.   |
| 3.     | 27                                  | Aluminium                                       | 29A                                 | Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.          |
| 4.     | 26A                                 | Copper pipe and tubes                           | 29A                                 | Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.          |
| 5.     | 26AA                                | Steel sheets and plates                         | 29A                                 | Refrigerating and air-conditioning appliances and machinery, all sorts and parts thereof.          |
| 6.     | 26AA                                | Steel sheets                                    | 28A                                 | Electrical stampings and laminations, all sorts.   |
| 7.     | 28A                                 | Electrical stampings and laminations, all sorts | 30                                  | Electric motors, all sorts and parts thereof.  |
| 8.     | 26AA                                | Steel billets and wire rods                     | 63                                  | Wire ropes.  |
| 9.     | 26AA                                | Steel sheets and plates                         | 48                                  | Safes, strong boxes strong-room linings and strong-room doors and cash and deed boxes and the like |

[95/79]

LAJJA RAM, Dy. Secy.

सा० का० नि० 178(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 223/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, मब 43 के पश्चात् निम्नलिखित मब अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—

“44. ग्लिसरीन।

45. विद्युत ठण्डे और पटलिकाएं सभी प्रकार की।

46. फोर्कलिफ्ट ट्रक और प्लेटफॉर्म ट्रक।

47. ऊन बूड़े और बल्लोम धुनित धुनियां जिनमें कुल फाइबर अन्तर्वस्तु के आश्रय पर संगणित ऊन का भार पचास प्रतिशत से अधिक है।

48. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं० 48 के अन्तर्गत आने वाली निजौरी और मजबूत पेटियां निजौरीनुमा कमरों के अन्तर्गत भाग निजौरीनुमा दरवाजे तथा नकदी और कागज पत्र रखने की पेटियां और बैसी ह्री चीजें।”

[96/79]

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely:—

In the said notification, after item 43, the following items shall be inserted, namely:—

“44. Glycerine.

45. Electrical stampings and laminations, all sorts.

46. Forklift trucks and platform trucks.

47. Wool tops and carded gilled slivers, containing, in either case, more than fifty per cent, by weight of wool calculated on the total fibre content.

48. Safes and strong-boxes, strong-room linings and strong-room doors and cash and deed boxes and the like falling under Item No. 48 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)”.]

[96/79]

सा० का० नि० 179(अ).—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अध्यास्थिति राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व विभाग अथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की अध्यास्थिति, अधिसूचना सं० 171/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 जून, 1969, 121/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मई, 1970, 179/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1971, 195/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 नवम्बर, 1971 117/72-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 25 मार्च, 1972, 161/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 अगस्त 1973, 33/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1976, 188/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 जून, 1977 और 69/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1978 के अनुक्रम में निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क माल को ऐसे उत्पाद-शुल्क के रूप में और विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त नियमों के अध्याय 7क के उपबन्ध लागू होंगे अर्थात्:—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब सं० 22छ, 47 और 59 में समाविष्ट माल।

[97/79]

G.S.R. 179(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue or Department

of Revenue and Banking, as the case may be, Nos. 171/69-Central Excises, dated the 21st June, 1969, 121/70-Central Excises, dated the 28th May, 1970, 179/71-Central Excises, dated the 23rd September, 1971, 195/71-Central Excise, dated the 12th November, 1971, 117/72-Central Excises, dated the 25th March, 1972, 161/73-Central Excises, dated the 16th August, 1973, 33/76-Central Excises, dated the 28th February, 1976, 188/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977 and 69/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, the Central Government hereby further specifies the following excisable goods as excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely:—

The goods comprised in Items Nos. 22G, 47 and 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[97/79]

सां. कां. निं. 180(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 197/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 17 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 1 के सामने, स्तम्भ (2) में,—

- (i) "बीड़ी, नमदार और खाने का तम्बाकू" प्रविष्टि के स्थान पर "बीड़ी, नमदार, खाने का तम्बाकू और ढुक्का-तम्बाकू" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) "ऊन चूड़ा अर्थात् चूड़ा जिसमें कुल फाइबर—अर्न्तवस्तु के आधार पर संगणित ऊन का भार पचास प्रतिशत से अधिक है" प्रविष्टि के स्थान पर "ऊन चूड़ा और क्लोम धूनिता पुनियाँ जिनमें कुल फाइबर—अर्न्तवस्तु के आधार पर संगणित ऊन का भार पचास प्रतिशत से अधिक है" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iii) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 188 के अन्तर्गत आने वाला सूत सभी प्रकार का" प्रविष्टि के स्थान पर "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 188 के अन्तर्गत आने वाला असेलुलोसी कना सूत" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (iv) "साइकिल, साइकिलों के पुर्जे (मोटर साइकिलों से भिन्न), अर्थात् फीवह्वील और रिम" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;
- (v) अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं. 228 के अन्तर्गत आने वाले गलीचे, कारपेटिंग और रंग (चाहे नाप से बनाई गई हों या नहीं, ताले सभी प्रकार के, और उनकी चाबियाँ, दुधबूझ।"

[98/79]

**G.S.R. 180(E).**—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.

197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely:—

In the Table annexed to the said notification, in column (2), against Serial No. 1,—

- (i) for the entry 'Biris, Snuff and Chewing Tobacco', the entry 'Biris, snuff, chewing tobacco and hookah tobacco' shall be substituted;
- (ii) for the entry 'wool tops, that is to say, tops containing more than fifty per cent, by weight of wool calculated on the total fibre content', the entry 'wool tops and carded gilled slivers, containing, in either case, more than fifty per cent by weight of wool calculated on the total fibre content' shall be substituted;
- (iii) for the entry 'Yarn, all sorts, falling under Item 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)', the entry 'Non-cellulosic spun yarn falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)' shall be substituted;
- (iv) the entry "Cycles, parts of cycles (other than motor cycles) namely, free wheels and rims" shall be omitted;
- (v) the following entry shall be inserted at the end, namely:—

"Carpets, carpeting, and rugs (made up or not) falling under Item No. 22G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), Locks, all sorts and keys therefor; Tooth brushes".

[98/79]

सां. कां. निं. 181(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 71/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा के स्पष्टीकरण 3 में, खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(vi) उक्त सारणी की मद सं. 41 के सामने निम्नलिखित वर्णन के माल के सम्बन्ध में निम्नलिखित माल का मुख्य हिसाब में लिया जाएगा —

- (1) ब्रेक लाइनिंग।
- (2) क्लच फेसिंग।
- (3) इंजन बाल्व।
- (4) गार्सकट।
- (5) नोजल और नोजल होल्डर।
- (6) (क) पिस्टन  
(ख) पिस्टन रिंग  
(ग) गजिन पिन  
(घ) मिरकिल्यस
- (7) शाक ऐबजांबर।
- (8) स्पार्किंग प्लग।
- (9) थिन बाल्ड बीयरिंग।
- (10) टाइ-राइ-ऐण्ड।
- (11) इलैक्ट्रिक हार्न।
- (12) फिल्टर एलीमेंट इन्स्टैंट और कार्टिज।"

**G.S.R. 181(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 71/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the said notification, in Explanation III of the first paragraph, for clause (vi), the following clause shall be substituted, namely :—

"(vi) in respect of goods of the description specified against serial number 41 of the said Table, the value of the following goods shall be taken into account :—

- (1) Brake linings.
- (2) Clutch facings.
- (3) Engine Valves.
- (4) Gaskets.
- (5) Nozzles and Nozzle holders.
- (6) (a) Pistons.
- (b) Piston rings.
- (c) Gudgeon pins.
- (d) Circlips.
- (7) Shock absorbers.
- (8) Sparking plugs.
- (9) Thin-walled bearings.
- (10) Tie-rod-ends.
- (11) Electric horns.
- (12) Filter elements, inserts and Cartridges".

[99/79]

सां कां निं 182(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 71/78-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में, क्रम सं० 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

| (1)  | (2) | (3)                                |
|------|-----|------------------------------------|
| "70. | 22च | ऐस्बेस्टास फाईबर और सूत            |
| 71.  | 47  | ताले, सभी प्रकार के और उनकी आखियां |
| 72.  | 59  | दुधब्रुश।"                         |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त होगी।

[100/79]

**G.S.R. 182(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 71/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after S. No. 69 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

| (1)  | (2)  | (3)                                 |
|------|------|-------------------------------------|
| "70. | 22 F | Asbestos fibre and yarn.            |
| 71.  | 47   | Locks, all sorts and keys therefor. |
| 72.  | 59   | Toothbrushes."                      |

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1979.

[100/79]

सां कां निं 183(अ).—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति राजस्व खंड, राजस्व विभाग, राजस्व और बीमा विभाग, राजस्व और कम्पनी विधि विभाग अथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को निखण्डित करती है, अर्थात्:—

1. अधिसूचना सं० 20-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जून, 1949।
2. अधिसूचना सं० 13/55-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1955।
3. अधिसूचना सं० 96/57-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1957।
4. अधिसूचना सं० 117/60-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1960।
5. अधिसूचना सं० 25/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962।
6. अधिसूचना सं० 30/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963।
7. अधिसूचना सं० 204/63-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1963।
8. अधिसूचना सं० 107/64-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 मई, 1964।
9. अधिसूचना सं० 168/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 अक्तूबर, 1965।
10. अधिसूचना सं० 195/67-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 अगस्त, 1967।
11. अधिसूचना सं० 39/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1968।
12. अधिसूचना सं० 13/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1969।
13. अधिसूचना सं० 99/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971।
14. अधिसूचना सं० 152/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971।
15. अधिसूचना सं० 31/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
16. अधिसूचना सं० 80/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
17. अधिसूचना सं० 82/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
18. अधिसूचना सं० 83/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
19. अधिसूचना सं० 86/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।
20. अधिसूचना सं० 213/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 नवम्बर, 1972।
21. अधिसूचना सं० 29/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।
22. अधिसूचना सं० 32/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।

23. अधिसूचना सं० 33/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1973।
24. अधिसूचना सं० 74/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973।
25. अधिसूचना सं० 194/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 1973।
26. अधिसूचना सं० 87/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1974।
27. अधिसूचना सं० 99/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मई, 1974।
28. अधिसूचना सं० 19/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975।
29. अधिसूचना सं० 20/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975।
30. अधिसूचना सं० 21/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975।
31. अधिसूचना सं० 98/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975।
32. अधिसूचना सं० 101/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975।
33. अधिसूचना सं० 124/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 12 मई, 1975।
34. अधिसूचना सं० 199/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 1975।
35. अधिसूचना सं० 234/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1975।
36. अधिसूचना सं० 59/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976।
37. अधिसूचना सं० 63/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976।
38. अधिसूचना सं० 91/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976।
39. अधिसूचना सं० 196/76—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1976।
40. अधिसूचना सं० 117/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977।
41. अधिसूचना सं० 208/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1978।

[101/79]

जी० के० पिल्ले, अधीक्षक सचिव

**G.S.R. 183.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Revenue Division, Department of Revenue, Department of Revenue and Insurance, Department of Revenue and Company Law or Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

1. Notification No. 20-Central Excises, dated the 4th June, 1949.
2. Notification No. 13/55-Central Excises, dated the 2nd April, 1955.

3. Notification No. 96/57-Central Excises, dated the 30th November, 1957.
4. Notification No. 117/60-Central Excises, dated the 24th September, 1960.
5. Notification No. 25/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.
6. Notification No. 30/63-Central Excises, dated the 1st March, 1963.
7. Notification No. 204/63-Central Excises, dated the 30th November, 1963.
8. Notification No. 107/64-Central Excises, dated the 9th May, 1964.
9. Notification No. 168/65-Central Excises, dated the 16th October, 1965.
10. Notification No. 195/67-Central Excises, dated the 26th August, 1967.
11. Notification No. 39/68-Central Excises, dated the 1st March, 1968.
12. Notification No. 13/69-Central Excises, dated the 22nd February, 1969.
13. Notification No. 99/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.
14. Notification No. 152/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.
15. Notification No. 31/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
16. Notification No. 80/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
17. Notification No. 82/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
18. Notification No. 83/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
19. Notification No. 86/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
20. Notification No. 213/72-Central Excises, dated the 11th November, 1972.
21. Notification No. 29/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
22. Notification No. 32/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
23. Notification No. 33/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
24. Notification No. 74/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.
25. Notification No. 194/73-Central Excises, dated the 9th November, 1973.
26. Notification No. 87/74-Central Excises, dated the 1st May, 1974.
27. Notification No. 96/74-Central Excises, dated the 25th May, 1974.
28. Notification No. 19/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
29. Notification No. 20/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
30. Notification No. 21/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975.
31. Notification No. 98/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.
32. Notification No. 101/75-Central Excises, dated the 30th April, 1975.
33. Notification No. 124/75-Central Excises, dated the 12th May, 1975.
34. Notification No. 199/75-Central Excises, dated the 8th September, 1975.

35. Notification No. 234/75-Central Excises, dated the 1st December, 1975
36. Notification No. 59/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
37. Notification No. 63/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
38. Notification No. 91/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.
39. Notification No. 196/76-Central Excises, dated the 19th June, 1976.
40. Notification No. 117/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.
41. Notification No. 206/78-Central Excises, dated the 1st December, 1978.

[101/79]

G. K. PILLAI, Under Secy.

**सीमा-शुल्क**

सां. कां. निं. 184(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं. 15.07 के अन्तर्गत आने वाले और इसमें उपाखण्ड सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जितना 12.5 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है; और

(ख) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अनिश्चित शुल्क से, छूट देती है।

**सारणी**

1. ताड़ का तेल
2. रेपसीड तेल
3. सोयाबीन तेल
4. सूर्यमुखी तेल
5. ताड़ पोलिइन

[सं. 42/कां. सं. बजट (सी.शु.)/79]

**CUSTOMS**

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table annexed hereto and falling under Heading No. 15.07 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 12.5 per cent ad valorem, and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

**TABLE**

1. Palm oil
2. Rapeseed oil
3. Soyabean oil
4. Sunflower oil
5. Palm oleine.

[No. 42/F. No. Bud(Cus)/79]

सां. कां. निं. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 25 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है।

[सं. 43/कां. सं. बजट (सी.शु.)/79]

G.S.R. No. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts salt falling within Chapter 25 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[No. 43/F. No. Bud (Cus)/79]

सां. कां. निं. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 या अध्याय 30 के अन्तर्गत आने वाले और इसमें उपाखण्ड सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है, जितना:

(क) यदि शुल्क की मानक दर उद्ग्रहणीय है तो, पञ्चम प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, और

(ख) यदि ऐसे माल उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिमानी क्षेत्र के रूप में घोषित किसी देश या राज्यक्षेत्र के उत्पादन या विनिर्माण है तो, पञ्चद प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

**सारणी**

| क्रम सं. | माल का वर्णन  |
|----------|---|
| 1.       | नॉक्वर्टीमीन  |
| 2.       | प्राक्सीमोथॉलिन   |
| 3.       | डाइमा यनहायमाइड   |
| 4.       | मोनो मॉडियम ग्लूकोलेट                                       |
| 5.       | स्वानिडीन   |
| 6.       | डी-2 ए मीनो थ्यूटोमीन                                       |
| 7.       | डी-हाइड्रोक्सी क्युतोलीन                                    |
| 8.       | मेथिल इमिडीजोव  |
| 9.       | टिजोक (अपरिपकृत एरीथ्रोसाह्विन/एरीथ्रोसाह्विन थ्रीमासायनेट) |
| 10.      | फरफाइन-एमीन   |
| 11.      | एमीटोनाइड्राइन  |
| 12.      | एक्लिनाइड्राइन  |

क्रम सं० माल का वर्णन

13. फरफा इलडिहाइड
14. डी-2 फीनाइल ग्लाइसिन
15. 6-ए.पी.ए
16. एल-वेम
17. धर्म्याशय

[सं० 44/फा० सं० बजट (सी० शु०)/79]

**G.S.R. No 186(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table annexed hereto and falling within Chapter 29 or Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of :

- (a) twenty-five per cent ad valorem, when the standard rate of duty is leviable; and
- (b) fifteen per cent ad valorem, if the goods are the produce or manufacture of any country or territory declared by the Central Government under sub-section (3) of section 4 of the Customs Tariff Act, 1975, as preferential area.

TABLE

| Sl. No. | Description of goods                               |
|---------|--|
| 1.      | Novaldimine  |
| 2.      | Ethoxymothline                                     |
| 3.      | Dicyandimide                                       |
| 4.      | Mono Sodium Gluconate                              |
| 5.      | Guanidine Hcl                                      |
| 6.      | D-2-aminobutanol                                   |
| 7.      | D-Hydroxy-quinoline                                |
| 8.      | Methyl Imimidazole                                 |
| 9.      | Tioc (Crude Erythromycin/Erythromycin Thiocyanate) |
| 10.     | Furfyl-amine                                       |
| 11.     | Acetonitrile                                       |
| 12.     | Acrylonitrile                                      |
| 13.     | Furfyldehyde                                       |
| 14.     | D-2-Phenyl Glycine                                 |
| 15.     | 6-APA  |
| 16.     | L-Base   |
| 17.     | Pancreas   |

[No. 44/F. No. Bud(Cus)/79]

सा० का० नि० 187(ख):—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 29 या अध्याय 30 के अन्तर्गत आने वाले और

इससे उपायधर सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उम पर उद्ग्रहणीय सम्बन्ध सीमा-शुल्क से जो उन प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, छूट देती है :

परन्तु इस प्रकार आयात किए गए माल भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं० 182-सीमा-शुल्क मारीख, 2 अगस्त, 1976 में विनिर्दिष्ट प्राण-रक्षक औषधि और औषधियों के विनिर्माण में प्रयोग किए जाते हैं ;

परन्तु यह और कि आयातकर्ता सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित पत्र में और राशि का बन्धपत्र निष्पादन करके स्वयं को इस बात के लिए ज्ञात करता है कि वह ऐसे पूर्वोक्त माल की वास्तविकता के बारे में सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं किया गया है कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समतुल्य है।

## सारणी

क्रम सं० माल का वर्णन

1. कोलाइस्टिन और उसका लक्षण
2. कार्बोनीसिलीन
3. थियोमाइसिन एच० सी० एच०
4. फ्लूरोरेसिल
5. एन० एन० एन० ट्राइएथिलीन थायो कामफेट
6. विनिलमास्टीन सल्फेट
7. विनिलस्टीन सल्फेट
8. माइटोमाइसिन सी
9. रीफैम्पिसिन
10. ऐलोपूरिनोल
11. साइक्लोफास्फामाइड
12. व्यूसल्फेट
13. मर्कैटोपूरिन
14. क्लोरेम्बुमिन
15. मैलफैलन
16. पिरिडिनोथ काबामिट
17. क्लोफैजीमिन
18. एजीथायोप्रिन
19. एल०-एस्पैरैजिनेम ( कोलेस्पेस )
20. हैलोथेम
21. एल०-डोपे
22. पोलियोमाइलिटिस टीका

[सं० 45/फा० सं० बजट (सी० शु०)/79]

**G.S.R. No. 187 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in the Table annexed hereto and falling within Chapter 29 or Chapter 30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when Imported into India from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule :

Provided that the goods so imported are used in the manufacture of life saving drugs and medicines specified in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 182-Customs, dated the 2nd August, 1976, as amended from time to time :

Provided further that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay on demand in respect of such aforesaid goods as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the duty leviable on such goods but for the exemption contained herein.

TABLE

| Sl.No. | Description of goods           |
|--------|--------------------------------|
| (1)    | (2)                            |
| 1.     | Colistin and its salts         |
| 2.     | Carbenicillin                  |
| 3.     | Lincomycin Hcl                 |
| 4.     | Flurouracil                    |
| 5.     | NNN Triethylene Thio Phosphate |
| 6.     | Vinblastin Sulphate            |
| 7.     | Vincristine Sulphate           |
| 8.     | Mitomycin C                    |
| 9.     | Rifampicin                     |
| 10.    | Allopurinol                    |
| 11.    | Cyclophosphamide               |
| 12.    | Busulphan                      |
| 13.    | Mercaptopurine                 |
| 14.    | Chlorambucil                   |
| 15.    | Melphalan                      |
| 16.    | Pyridinol Carbamate            |
| 17.    | Clofazimine                    |
| 18.    | Azathoprine                    |
| 19.    | L-Asparaginase (Colaspase)     |
| 20.    | Halothane                      |
| 21.    | L-Dopa                         |
| 22.    | Poliomyelitis Vaccine          |

[No. 45/F.No. Bud(Cus)/79]

**सां कां निं 188(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 84 या अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाले पावर टिलर को, जब उनका ऐसे कृषि-उद्योग निगम द्वारा प्रदत्त या उसकी ओर से भारत में आयात किया जाए, जो निगम केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अथवा भागतः केन्द्रीय सरकार और भागतः किसी राज्य सरकार के सशामित्वाधीन निगम है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, छूट देती है।

[सं० 46/का० सं० बजट (सी०शु०)/79]

**G.S.R. 188 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts power tillers, falling within Chapter 84 or Chapter 87 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, by or on behalf of any Agro-Industries Corporation, such Corporation being a Corporation owned by the Central Government or a State Government or partly by the Central Government and partly by a State Government, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule.

[No. 46/F. No. Bud(Cus)/79]

**सां कां निं 189(अ).**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 272-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकांश करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 84.51/55 के उप-शीर्ष सं० (2) के अन्तर्गत आने वाले कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सब-सिस्टम को, जब उनका भारत में आयात किया जाए,—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से, जितना आतीम प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है ; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से जितना दस प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 47/का० सं० बजट (सी०शु०)/79]

**G.S.R. 189(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 272-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts computers and computer sub-systems, falling under sub-heading No. (2) of Heading No.



84.51/55 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of forty per cent ad valorem; and
- (b) so much of the additional duty of customs leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of ten per cent ad valorem.

[No. 47/F. No. Bud(Cus)/79]

सां. कां. निं. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के ऐसे अध्यायों या शीर्ष संख्याओं के, जो नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट हैं, अन्तर्गत आने वाले और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

#### सारणी

क्रम सं० सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय या शीर्ष सं०

1. अध्याय 2 से 23 तक (जिनमें वे दोनों अध्याय सम्मिलित हैं)।
2. अध्याय 25
3. अध्याय 26
4. शीर्ष सं० 27.09
5. अध्याय 31
6. अध्याय 41
7. अध्याय 44
8. अध्याय 49
9. शीर्ष सं० 50.01 और 50.02
10. शीर्ष सं० 53.01/05
11. शीर्ष सं० 54.01/02
12. शीर्ष सं० 55.01/04
13. शीर्ष सं० 57.01/04
14. शीर्ष सं० 71.01, 71.02, 71.03, 71.04 और 71.05/11
15. अध्याय 72
16. अध्याय 75
17. अध्याय 77
18. अध्याय 80
19. अध्याय 81
20. शीर्ष सं० 87.08

क्रम सं० सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय या शीर्ष सं०

21. शीर्ष सं० 90.19
22. शीर्ष सं० 90.21
23. अध्याय 99
24. शीर्ष सं० 100.03

[सं० 48/ फा० सं० बजट (सी० शु०)/79]

G.S.R. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts such of the goods falling within the Chapters or Heading Numbers of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the Table below, as fall also under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) when imported into India, from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975.

#### THE TABLE

Sl. Chapters or Heading Nos. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975.

1. Chapters 2 to 23 (both inclusive)
2. Chapter 25
3. Chapter 26
4. Heading No. 27.09
5. Chapter 31
6. Chapter 41
7. Chapter 44
8. Chapter 49
9. Heading Nos. 50.01 and 50.02
10. Heading No. 53.01/05
11. Heading No. 54.01/02
12. Heading No. 55.01/04
13. Heading No. 57.01/04
14. Heading Nos. 71.01, 71.02, 71.03, 71.04 and 71.05/11
15. Chapter 72
16. Chapter 75
17. Chapter 77
18. Chapter 80
19. Chapter 81.
20. Heading No. 87.08
21. Heading No. 90.19
22. Heading No. 90.21
23. Chapter 99
24. Heading No. 100.03

[No. 48/F. No. Bud (Cus)/79]

सा० का० नि० 191 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे मान को, जो भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय या राजस्व और बैंकिंग विभाग या राजस्व विभाग की ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर जो नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं, और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत भी आते हैं, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल के सम्बन्ध में इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन होगी जिनके अधीन रहते हुए ऐसे मान ऐसी अधिसूचना के आधार पर उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं।

#### अनुसूची

1. सं० 262-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958।
2. सं० 166-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
3. सं० 197-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
4. सं० 216-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
5. सं० 249-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
6. सं० 302-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
7. सं० 308-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
8. सं० 312-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
9. सं० 313-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
10. सं० 320-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
11. सं० 106-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
12. सं० 40-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
13. सं० 41-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
14. सं० 42-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 1978।
15. सं० 43-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
16. सं० 45-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
17. सं० 49-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
18. सं० 243-सीमाशुल्क, तारीख 26 दिसम्बर, 1978।
19. सं० 14-सीमाशुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1979।

[सं० 49/फा० सं० बजट (सीमाशुल्क) / 79]

**G.S.R. 191(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts such of the goods as are partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the

Government of India in the Ministry of Finance or in the Department of Revenue and Banking, or Department of Revenue, as the case may be, specified in the Schedule below, and fall also under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975 :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification, either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

#### THE SCHEDULE

1. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958.
2. No. 166-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. No. 197-Customs, dated the 2nd August, 1976.
4. No. 216-Customs, dated the 2nd August, 1976.
5. No. 249-Customs, dated the 2nd August, 1976.
6. No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976.
7. No. 308-Customs, dated the 2nd August, 1976.
8. No. 312-Customs, dated the 2nd August, 1976.
9. No. 313-Customs, dated the 2nd August, 1976.
10. No. 320-Customs, dated the 2nd August, 1976.
11. No. 106-Customs, dated the 1st July, 1977.
12. No. 40-Customs, dated the 1st March, 1978.
13. No. 41-Customs, dated the 1st March, 1978.
14. No. 42-Customs, dated the 1st March, 1978.
15. No. 43-Customs, dated the 1st March, 1978.
16. No. 45-Customs, dated the 1st March, 1978.
17. No. 49-Customs, dated the 1st March, 1978.
18. No. 243-Customs, dated the 26th December, 1978.
19. No. 14-Customs, dated the 18th January, 1979.

[No. 49/F. No. Bud(Cus)/79]

सा० का० नि० 192 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक-हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० 82.00 के अन्तर्गत आने वाले और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली लैडर प्रोविंग मशीनों ( हाइड्रोलिक ) के लिए ब्लेडों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

[सं० 50/फा० सं० बजट (सीमा शु.)/79]

**G.S.R. 192(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts blades for leather shaving machine (Hydraulic), falling under Heading No. 82.06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), when imported into India, from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, 1975.

[No. 50/F. No. Bud. (Cus.)/79]

सां. कां. निं. 193 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4), जो खंड अन्तिम कर संश्लेषण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाखंड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम अनुसूची कहा गया है) वर्णित माल है, उस पर उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उद्घरणयोग्य उतने सहायक सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रवृत्ति में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अधीन, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल की बाबत सहायक सीमाशुल्क से दी गई छूट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### सारणी

| क्रम सं० | माल का वर्णन   | सहायक सीमाशुल्क की दर   |
|----------|--|---|
| (1)      | (2)  | (3)   |
| 1.       | वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार या उससे अधिक है किन्तु एक सौ प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है। | सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-प्रवृत्त माल के मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत। |
| 2.       | वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर मूल्य या 80 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है।   | सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-प्रवृत्त माल के मूल्य का पांच प्रतिशत।    |

| (1)   | (2)   | (3)  |
|-------|---|--|
| 3.    | वह माल जिसकी बाबत, भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क — | सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथा-प्रवृत्त माल के मूल्य का पांच प्रतिशत। |
| (i)   | किसी विनिर्दिष्ट दर पर है, प्रवृत्त   |  |
| (ii)  | किसी विनिर्दिष्ट दर या मूल्यानुसार दर में से जो भी, यथास्थिति, न्यून या उच्चतर हो, उस पर है, प्रवृत्त                             |  |
| (iii) | किसी विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है।  |  |
| 4.    | कच्चा पेट्रोलियम, जो उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 27.09 के अन्तर्गत आता है।  | 9.50 रुपये प्रति मीटरी टन।   |

स्पष्टीकरण :—उपर्युक्त सारणी में क्रम सं० 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क की दर "अभिव्यक्ति में दी या अधिक भिन्न भिन्न शुल्क की दरों के बाविरबाधित किसी वस्तु के सम्बन्ध में, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में उच्चतम है।

[सं० 51/कां० सं० बजट (सी० शु० )/79]

**G.S.R. 193 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table annexed hereto, being goods mentioned in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the First Schedule), from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill as is in excess of the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

#### THE TABLE

| S. No. | Description of goods   | Rate of auxiliary duty of customs   |
|--------|--|---|
| (1)    | (2)  | (3)   |
| 1.     | Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is 60 per cent <i>ad valorem</i> or more but less than 100 per cent <i>ad valorem</i> | Fifteen per cent of the Value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962). |

| (1)   | (2)   | (3)  | (1) | (2)      | (3)   |
|---|---|--|-----|----------|---|
| 2.  | Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force is nil or less than 60 per cent <i>ad valorem</i> .  | Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962). | 2.  | 10       | अनाज, जिसके अन्तर्गत दाला हुआ अनाज भी है।   |
| 3.  | Goods in respect of which the duty of customs specified in the said First Schedule, read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is—<br>(i) At a specific rate; or<br>(ii) at a specific rate or <i>ad valorem</i> rate, whichever is less or higher, as the case may be; or<br>(iii) at a specific rate and <i>ad valorem</i> rate. | Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962). | 3.  | 25       | ममक   |
| 4.  | Crude Petroleum, falling under Heading No. 27.09 of the said First Schedule.  | Rs. 9.50 per metric tonne.   | 4.  | 27       | खसिज ग्रीज, जिसके अन्तर्गत पैट्रोसियम, जैली, ऊँची गति वाला ग्रीजल तेल और शीर्ष सं० 27.10 की उपशीर्ष सं० (2), (3), (4), (6), (7) और (8) के अन्तर्गत सम्मिलित माल भी है।  |
| Explanation:—For the purposes of Sl. Nos. 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force," in relation to any article liable to two or more different rates of duty by reason of the country of origin of that article, means that rate of duty which is the highest of those rates.   |   |  | 5.  | 37       | शैक्षिक प्रयोजनों के लिए फिल्म स्ट्रिप्स और फिल्म ग्लाइड।   |
| [No. 51/F. No. Bud (Cus)/79]  |   |  | 6.  | 40       | शीर्ष सं० 40.05/16 की उपशीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाला माल।   |
| सा० का० नि० 194 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4), जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई धोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उस अध्याय या उन अध्यायों के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ब्रूणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है। |   |  | 7.  | 49       | करेन्सी नोट, मुद्रित पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत मुद्रित पुस्तकों के लिए कवर, पत्रिकाएं, नक्शे, चाट और रेखांक, युफ, संगीत, पाण्डुलिपियाँ, और पुस्तकों की जिल्दसाजी के लिए विशेष रूप से बनाए गए चित्र भी हैं।   |
|   |   |  | 8.  | 49 या 99 | नमूने, माडल, और बीवाल-मोरेख, प्राकृतिक विज्ञान के चित्र, मैडल प्राचीन सिक्के और डाक टिकट, चाहे प्रयुक्त या अप्रयुक्त।   |
|   |   |  | 9.  | 55       | कच्ची कपास।   |
|   |   |  | 10. | 59       | शीर्ष सं० 59.16/17 के अन्तर्गत आने वाला माल।  |
|   |   |  | 11. | 71       | औद्योगिक हीरे (डायमंड)।   |
|   |   |  | 12. | 72       | भारत सरकार के चालू सिक्के।  |
|   |   |  | 13. | 84       | शीर्ष सं० 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08, (1), 84.09, 84.10 (1), 84.11, (1), 84.11 (4), 84.13, 84.14, 84.15 (1), 84.16, 84.17 (1), 84.18 (1), 84.22, 84.23, 84.24 (1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30 (2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37 (1), 84.38 (1), 84.39, 84.40 (1), 84.41 (1), 84.42 (1), 84.42 (2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59 (2) और 84.66 के अन्तर्गत आने वाला माल। |
| सारणी   |   |  |     |          |   |
| क्रम सं०  | सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की अध्याय सं०  | माल का वर्णन   |     |          |   |
| (1)   | (2)   | (3)  |     |          |   |
| 1.  | 7   | वालें जिनके अन्तर्गत दली हुई वालें भी हैं।   |     |          |   |

| (1) | (2) | (3)   | (1) | (2)      | (3)   |
|-----|-----|---|-----|----------|---|
| 14. | 84  | (1) स्थिर या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और ऐसे स्थिर या औद्योगिक अन्तर्दहन पिस्टन इंजन के पुर्जे जिसमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जिन्हें मोटरयानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदला जा सकता है और जो नीचे मद (2) में विनिर्दिष्ट में निम्न है।<br>(2) औद्योगिक और कृषि ट्रैक्टरों के लिए अन्तर्दहन पिस्टन इंजन और उनके पुर्जे जिसमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जो ग्रह्य मोटरयानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं।<br>(3) सामुद्री इंजन और उनके पुर्जे जिसमें वे इंजन और पुर्जे नहीं हैं जो मोटर-यानों में प्रयोग के लिए एक दूसरे के साथ बदले जा सकते हैं और ऊपर की मद (2) में विनिर्दिष्ट में निम्न है। | 2.  | 10       | Grains including broken grains.   |
|     |     |   | 3.  | 25       | Salt.   |
|     |     |   | 4.  | 27       | Mineral grease, including petroleum jelly, high speed diesel oil, and goods falling under Sub-heading Nos. (2), (3), (4), (6), (7) and (8) of Heading No. 27.10.  |
|     |     |   | 5.  | 37       | Film strips and film slides for educational purposes.   |
|     |     |   | 6.  | 40       | Goods falling under Sub-heading No. (3) of Heading No. 40.05/16.  |
|     |     |   | 7.  | 49       | Paper money, printed books, including covers for printed books, periodicals, maps, charts and plans, proofs, music, manuscripts, and illustrations specially made for binding in books.   |
|     |     |   | 8.  | 49 or 99 | Specimens, models and wall diagrams, illustrative of natural science, medals, antique coins and postage stamps, whether used or unused.   |
| 15. | 85  | शीर्ष सं० 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1) 85.18/27(3) और 8.18/27(7) के अन्तर्गत आने वाला माल।  | 9.  | 55       | Cotton, raw.  |
| 16. | 86  | चलित और टेंडर तथा ऐसे चलित और टेंडर के पुर्जे।  | 10. | 59       | Goods falling under Heading No. 59.16/17.   |
| 17. | 87  | ट्रेक्टर और फायर इंजन तथा ऐसे ट्रेक्टरों तथा फायर इंजनों के पुर्जे।   | 11. | 71       | Industrial diamonds.  |
| 18. | 98  | कम्पोजिंग स्टिक।  | 12. | 72       | Current coin of the Government of India.  |
|     |     | [सं० 52/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]   | 13. | 84       | Goods falling under Heading Nos. 84.01/02, 84.03, 84.04/05, 84.07, 84.08(1), 84.09, 84.10(1), 84.11(1), 84.11(4), 84.13, 84.14, 84.15(1), 84.16, 84.17(1), 84.18(1), 84.22, 84.23, 84.24(1), 84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30(2), 84.31, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37(1), 84.38(1), 84.39, 84.40(1), 84.41(1), 84.42(1), 84.42(2), 84.43, 84.44, 84.45/48, 84.49, 84.56, 84.57, 84.59(2) and 84.66.                                  |
|     |     |   | 14. | 84       | (1) Stationary or industrial internal combustion piston engines and parts of such stationary or industrial internal combustion piston engines excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) below<br>(2) Internal combustion piston engines or industrial and agricultural tractors and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with other motor vehicles. |

G.S.R. 194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling within the Chapter or Chapters of the First Schedule to the Customs Tariffs, Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill.

TABLE

| Serial No. | Chapter No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 | Description of goods            |
|------------|---|---------------------------------|
| (1)        | (2)   | (3)                             |
| 1.         | 7   | Pulses including broken pulses. |

| (1) | (2) | (3)  |
|-----|-----|--|
|     |     | (3) Marine engines and parts thereof excluding those which are interchangeable for use with motor vehicles other than those specified in item (2) above. |
| 15. | 85  | Goods falling under Heading Nos. 85.01(1), 85.02(1), 85.11(1), 85.18/27(3) and 85.18.27(7).  |
| 16. | 86  | Locomotives and tenders and parts of such locomotives and tenders.   |
| 17. | 87  | Tractors and fire-engines and parts of such tractors and fire-engines.   |
| 18. | 98  | Composing sticks.  |

[No. 52/F. No. Bud(Cus)/79]

सां. कां. निं. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4) जो खंड अन्तर्गत कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है उस माल की जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचनाओं के आधार पर जो सीमा की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क के संदाय से छूट देती है :

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिसूचना में उल्लिखित किसी माल की बाबत इस अधिसूचना के अधीन छूट ऐसी शर्तों के यदि कोई हों, अधीन होगी जिनके अधीन रहते हुए ऐसे माल उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क से ऐसी अधिसूचनाओं के आधार पर भागतः या पूर्णतः छूट प्राप्त हैं।

#### अनुसूची

1. सं० 2-सीमाशुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1953।
2. सं० 43-सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1953।
3. सं० 136-सीमाशुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1956।
4. सं० 3-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957।
5. सं० 113-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1957।
6. सं० 220-सीमाशुल्क, तारीख 12 अक्टूबर, 1957।
7. सं० 65-सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958।
8. सं० 67-सीमाशुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958।
9. सं० 106-सीमाशुल्क, तारीख 29 मार्च, 1958।
10. सं० 151-सीमाशुल्क, तारीख 10 मई, 1958।
11. सं० 259-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
12. सं० 260-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
13. सं० 261-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।

14. सं० 262-सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्टूबर, 1958।
15. सं० 269-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
16. सं० 271-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
17. सं० 273-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
18. सं० 275-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
19. सं० 276-सीमाशुल्क, तारीख 25 अक्टूबर, 1958।
20. सं० 117-सीमाशुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 1961।
21. सं० 132-सीमाशुल्क, तारीख 8 दिसम्बर, 1961।
22. सं० 26-सीमाशुल्क, तारीख 18 फरवरी, 1962।
23. सं० 136-सीमाशुल्क, तारीख 29 सितम्बर, 1962।
24. सं० 168-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर 1962।
25. सं० 169-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962।
26. सं० 170-सीमाशुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962।
27. सं० 43-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963।
28. सं० 92-सीमाशुल्क, तारीख 9 मार्च, 1963।
29. सं० 180-सीमाशुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1963।
30. सं० 202-सीमाशुल्क, तारीख 24 अगस्त, 1963।
31. सं० 210-सीमाशुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1963।
32. सं० 10-सीमाशुल्क, तारीख 16 जनवरी, 1965।
33. सं० 163-सीमाशुल्क, तारीख 16 अक्टूबर, 1965।
34. सं० 135-सीमाशुल्क, तारीख 20 जून, 1966।
35. सं० 174-सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1966।
36. सं० 85-सीमाशुल्क, तारीख 5 अगस्त, 1967।
37. सं० 107-सीमाशुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1969।
38. सं० 80-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970।
39. सं० 103-सीमाशुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1970।
40. सं० 36-सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 1971।
41. सं० 84-सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1971।
42. सं० 37-सीमाशुल्क, तारीख 18 मार्च, 1972।
43. सं० 46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974।
44. सं० 79-सीमाशुल्क, तारीख 16 अक्टूबर, 1974।
45. सं० 27-सीमाशुल्क, तारीख 6 मई, 1975।
46. सं० 125-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
47. सं० 130-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।
48. सं० 134-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976।

- [illegible]

123. सं० 105—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
124. सं० 124—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
125. सं० 125—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
126. सं० 127—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
127. सं० 130—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
128. सं० 131—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
129. सं० 132—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
130. सं० 134—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
131. सं० 135—सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977।
132. सं० 142—सीमाशुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1977।
133. सं० 143—सीमाशुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1977।
134. सं० 148—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
135. सं० 149—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
136. सं० 152—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977।
137. सं० 156—सीमाशुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1977।
138. सं० 169—सीमाशुल्क, तारीख 6 अगस्त, 1977।
139. सं० 183—सीमाशुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1977।
140. सं० 185—सीमाशुल्क, तारीख 27 अगस्त, 1977।
141. सं० 200—सीमाशुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1977।
142. सं० 211—सीमाशुल्क, तारीख 15 अक्टूबर, 1977।
143. सं० 231—सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1977।
144. सं० 242—सीमाशुल्क, तारीख 19 नवम्बर, 1977।
145. सं० 245—सीमाशुल्क, तारीख 19 नवम्बर, 1977।
146. सं० 252—सीमाशुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1977।
147. सं० 253—सीमाशुल्क, तारीख 13 दिसम्बर, 1977।
148. सं० 254—सीमाशुल्क, तारीख 13 दिसम्बर, 1977।
149. सं० 5—सीमाशुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1978।
150. सं० 11—सीमाशुल्क, तारीख 7 जनवरी, 1978।
151. सं० 18—सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1978।
152. सं० 34—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
153. सं० 36—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
154. सं० 37—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
155. सं० 39—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
156. सं० 43—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
157. सं० 46—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
158. सं० 47—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
159. सं० 48—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
160. सं० 49—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
161. सं० 50—सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978।
162. सं० 68—सीमाशुल्क, तारीख 25 मार्च, 1978।
163. सं० 70—सीमाशुल्क, तारीख 25 मार्च, 1978।
164. सं० 71—सीमाशुल्क, तारीख 25 मार्च, 1978।
165. सं० 76—सीमाशुल्क, तारीख 31 मार्च, 1978।
166. सं० 79—सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1978।
167. सं० 81—सीमाशुल्क, तारीख 5 अप्रैल, 1978।
168. सं० 86—सीमाशुल्क, तारीख 25 अप्रैल, 1978।
169. सं० 91—सीमाशुल्क, तारीख 1 मई, 1978।
170. सं० 101—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1978।
171. सं० 102—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1978।
172. सं० 103—सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 1978।
173. सं० 115—सीमाशुल्क, तारीख 17 जून, 1978।
174. सं० 117—सीमाशुल्क, तारीख 9 जून, 1978।
175. सं० 120—सीमाशुल्क, तारीख 19 जून, 1978।
176. सं० 122—सीमाशुल्क, तारीख 21 जून, 1978।
177. सं० 127—सीमाशुल्क, तारीख 28 जून, 1978।
178. सं० 135—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978।
179. सं० 136—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978।
180. सं० 137—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978।
181. सं० 138—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978।
182. सं० 139—सीमाशुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978।
183. सं० 142—सीमाशुल्क, तारीख 28 जुलाई, 1978।
184. सं० 152—सीमाशुल्क, तारीख 9 अगस्त, 1978।
185. सं० 164—सीमाशुल्क, तारीख 21 अगस्त, 1978।
186. सं० 170—सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1978।
187. सं० 184—सीमाशुल्क, तारीख 16 सितम्बर, 1978।



|          |                       |                   |
|----------|-----------------------|-------------------|
| 188. सं० | 195-सीमा शुल्क, तारीख | 3 अक्टूबर, 1978।  |
| 189. सं० | 206-सीमा शुल्क, तारीख | 2 नवम्बर, 1978।   |
| 190. सं० | 209-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 191. सं० | 211-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 192. सं० | 217-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 193. सं० | 218-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 194. सं० | 219-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 195. सं० | 220-सीमा शुल्क, तारीख | 10 नवम्बर, 1978।  |
| 196. सं० | 240-सीमा शुल्क, तारीख | 30 दिसम्बर, 1978। |
| 197. सं० | 243-सीमा शुल्क, तारीख | 26 दिसम्बर, 1978। |
| 198. सं० | 6-सीमा शुल्क, तारीख   | 5 जनवरी, 1979।    |
| 199. सं० | 9-सीमा शुल्क, तारीख   | 13 जनवरी, 1979।   |
| 200. सं० | 14-सीमा शुल्क, तारीख  | 18 जनवरी, 1979।   |
| 201. सं० | 17-सीमा शुल्क, तारीख  | 25 जनवरी, 1979।   |
| 202. सं० | 24-सीमा शुल्क, तारीख  | 27 जनवरी, 1979।   |
| 203. सं० | 26-सीमा शुल्क, तारीख  | 31 जनवरी, 1979।   |
| 204. सं० | 29-सीमा शुल्क, तारीख  | 10 फरवरी, 1979।   |
| 205. सं० | 35-सीमा शुल्क, तारीख  | 15 फरवरी, 1979।   |
| 206. सं० | 36-सीमा शुल्क, तारीख  | 15 फरवरी, 1979।   |
| 207. सं० | 37-सीमा शुल्क, तारीख  | 15 फरवरी, 1979।   |
| 208. सं० | 42-सीमा शुल्क, तारीख  | 1 मार्च, 1979।    |
| 209. सं० | 44-सीमा शुल्क, तारीख  | 1 मार्च, 1979।    |
| 210. सं० | 45-सीमा शुल्क, तारीख  | 1 मार्च, 1979।    |
| 211. सं० | 46-सीमा शुल्क, तारीख  | 1 मार्च, 1979।    |
| 212. सं० | 47-सीमा शुल्क, तारीख  | 1 मार्च, 1979।    |

[सं० 53/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]।

**G.S.R. 195(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods which the partially or wholly exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by virtue of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance or in Department of Revenue and Banking, specified in the Schedule below, from the payment of auxiliary duty of customs leviable on such

1254 GI/78—8

goods under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill :

Provided that the exemption under this notification with respect to any goods mentioned in any notification specified in the said Schedule shall be subject to the conditions, if any, subject to which such goods are exempt by virtue of such notification either partially or wholly, from the duty of customs specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975.

#### THE SCHEDULE

1. No. 2-Customs, dated the 10th January, 1953.
2. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
3. No. 136-Customs, dated the 30th November, 1956.
4. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1957.
5. No. 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
6. No. 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
7. No. 65-Customs dated the 22nd February, 1958.
8. No. 67-Customs, dated the 22nd February, 1958.
9. No. 106-Customs, dated the 29th March, 1958.
10. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
11. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
12. No. 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
13. No. 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
14. No. 262-Customs, dated the 11th October 1958.
15. No. 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
16. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
17. No. 273-Customs, dated the 25th October, 1958.
18. No. 275-Customs, dated the 25th October, 1958.
19. No. 276-Customs, dated the 25th October, 1958.
20. No. 117-Customs, dated the 13th October, 1961.
21. No. 132-Customs dated the 9th December, 1961.
22. No. 26-Customs, dated the 19th February, 1962.
23. No. 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
24. No. 168-Customs, dated the 8th November, 1962.
25. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962.
26. No. 170-Customs, dated the 8th November, 1962.
27. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
28. No. 92-Customs, dated the 9th March 1963.
29. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963.
30. No. 202-Customs, dated the 24th August, 1963.
31. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963.
32. No. 10-Customs, dated the 16th January, 1965.
33. No. 163-Customs, dated the 16th October, 1965.
34. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.

35. No. 174-Customs dated the 24th September, 1966.
36. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967.
37. No. 107-Customs, dated the 19th July, 1969.
38. No. 80-Customs, dated the 29th August, 1970.
39. No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
40. No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971.
41. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971.
42. No. 37-Customs, dated the 18th March, 1972.
43. No. 46-Customs, dated the 25th May, 1974.
44. No. 79-Customs, dated the 16th October, 1974.
45. No. 27-Customs, dated the 6th May, 1975.
46. No. 125-Customs, dated the 2nd August, 1976.
47. No. 130-Customs dated the 2nd August, 1976.
48. No. 134-Customs, dated the 2nd August, 1976.
49. No. 141-Customs, dated the 2nd August, 1976.
50. No. 149-Customs, dated the 2nd August, 1976.
51. No. 150-Customs, dated the 2nd August, 1976.
52. No. 154-Customs, dated the 2nd August, 1976.
53. No. 158-Customs, dated the 2nd August, 1976.
54. No. 160-Customs, dated the 2nd August 1976.
55. No. 161-Customs, dated the 2nd August, 1976.
56. No. 165-Customs, dated the 2nd August, 1976.
57. No. 166-Customs, dated the 2nd August, 1976.
58. No. 173-Customs, dated the 2nd August, 1976.
59. No. 174-Customs, dated the 2nd August, 1976.
60. No. 182-Customs, dated the 2nd August, 1976.
61. No. 183-Customs dated the 2nd August, 1976.
62. No. 184-Customs, dated the 2nd August, 1976.
63. No. 185-Customs, dated the 2nd August, 1976.
64. No. 186-Customs, date the 2nd August, 1976.
65. No. 187-Customs, dated the 2nd August, 1976.
66. No. 188-Customs, dated the 2nd August, 1976.
67. No. 189-Customs, dated the 2nd August, 1976.
68. No. 195-Customs, dated the 2nd August 1976.
69. No. 197-Customs, dated the 2nd August, 1976.
70. No. 198-Customs, dated the 2nd August, 1976.
71. No. 201-Customs, dated the 2nd August, 1976.
72. No. 204-Customs, dated the 2nd August, 1976.
73. No. 206-Customs, dated the 2nd August, 1976.
74. No. 207-Customs, dated the 2nd August, 1976.
75. No. 208-Customs dated the 2nd August, 1976.
76. No. 209-Customs, dated the 2nd August, 1976.
77. No. 210-Customs, dated the 2nd August, 1976.
78. No. 211-Customs, dated the 2nd August, 1976.
79. No. 213-Customs, dated the 2nd August, 1976.
80. No. 215-Customs, dated the 2nd August, 1976.
81. No. 216-Customs, dated the 2nd August, 1976.
82. No. 217-Customs, dated the 2nd August 1976.
83. No. 218-Customs, dated the 2nd August, 1976.
84. No. 220-Customs, dated the 2nd August, 1976.
85. No. 222-Customs, dated the 2nd August, 1976.
86. No. 223-Customs, dated the 2nd August 1976.
87. No. 225-Customs, dated the 2nd August, 1976.
88. No. 226-Customs, dated the 2nd August, 1976.
89. No. 229-Customs, dated the 2nd August 1976.
90. No. 230-Customs, dated the 2nd August, 1976.
91. No. 236-Customs, dated the 2nd August, 1976.
92. No. 237-Customs, dated the 2nd August, 1976.
93. No. 238-Customs, dated the 2nd August 1976.
94. No. 241-Customs, dated the 2nd August, 1976.
95. No. 242-Customs, dated the 2nd August, 1976.
96. No. 243-Customs, dated the 2nd August 1976.
97. No. 246-Customs, dated the 2nd August, 1976.
98. No. 248-Customs, dated the 2nd August, 1976.
99. No. 249-Customs, dated the 2nd August 1976.
100. No. 250-Customs, dated the 2nd August, 1976.
101. No. 260-Customs, dated the 2nd August, 1976.
102. No. 288-Customs, dated the 2nd August 1976.
103. No. 290-Customs, dated the 2nd August, 1976.
104. No. 292-Customs, dated the 2nd August, 1976.
105. No. 294-Customs, dated the 2nd August, 1976.
106. No. 296-Customs, dated the 2nd August 1976.
107. No. 302-Customs, dated the 2nd August, 1976.
108. No. 309-Customs, dated the 2nd August, 1976.
109. No. 310-Customs, dated the 2nd August 1976.

- |   |   |
|---|---|
| 110. No. 311-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 150. No. 11-Customs, dated the 7th January, 1978.     |
| 111. No. 313-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 151. No. 18-Customs, dated the 25th January, 1978.    |
| 112. No. 315-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 152. No. 34-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 113. No. 316-Customs dated the 2nd August, 1976.      | 153. No. 36-Customs dated the 1st March, 1978         |
| 114. No. 319-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 154. No. 37-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 115. No. 320-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 155. No. 39-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 116. No. 322-Customs dated the 2nd August, 1976.      | 156. No. 43-Customs dated the 1st March, 1978.        |
| 117. No. 324-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 157. No. 46-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 118. No. 347-Customs, dated the 2nd August, 1976.     | 158. No. 47-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 119. No. 4-Customs, dated the 6th January, 1977.      | 159. No. 48-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 120. No. 7-Customs, dated the 11th January, 1977.     | 160. No. 49-Customs, dated the 1st March, 1978.       |
| 121. No. 11-Customs dated the 15th January, 1977.     | 161. No. 50-Customs dated the 1st March, 1978.        |
| 122. No. 23-Customs, dated the 8th February, 1977.    | 162. No. 68-Customs, dated the 25th March, 1978.      |
| 123. No. 105-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 163. No. 70-Customs, dated the 25th March, 1978.      |
| 124. No. 124-Customs dated the 1st July, 1977.        | 164. No. 71-Customs dated the 25th March, 1978.       |
| 125. No. 125-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 165. No. 76-Customs, dated the 31st March, 1978.      |
| 126. No. 127-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 166. No. 79-Customs, dated the 1st April, 1978.       |
| 127. No. 130-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 167. No. 81-Customs, dated the 5th April, 1978.       |
| 128. No. 131-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 168. No. 86-Customs, dated the 25th April, 1978.      |
| 129. No. 132-Customs dated the 1st July, 1977.        | 169. No. 91-Customs dated the 1st May, 1978.          |
| 130. No. 134-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 170. No. 101-Customs, dated the 16th May, 1978.       |
| 131. No. 135-Customs, dated the 1st July, 1977.       | 171. No. 102-Customs, dated the 16th May, 1978.       |
| 132. No. 142-Customs dated the 16th July, 1977.       | 172. No. 103-Customs dated the 16th May, 1978.        |
| 133. No. 143-Customs, dated the 16th July, 1977.      | 173. No. 115-Customs, dated the 17th June, 1978.      |
| 134. No. 148-Customs, dated the 15th July, 1977.      | 174. No. 117-Customs, dated the 9th June, 1978.       |
| 135. No. 149-Customs, dated the 15th July, 1977.      | 175. No. 120-Customs, dated the 19th June, 1978.      |
| 136. No. 152-Customs, dated the 15th July, 1977.      | 176. No. 122-Customs dated the 21st June, 1978.       |
| 137. No. 156-Customs dated the 16th July, 1977.       | 177. No. 127-Customs, dated the 28th June, 1978.      |
| 138. No. 169-Customs, dated the 6th August, 1977.     | 178. No. 135-Customs, dated the 15th July, 1978.      |
| 139. No. 183-Customs, dated the 22nd August, 1977.    | 179. No. 136-Customs dated the 15th July, 1978.       |
| 140. No. 185-Customs dated the 27th August, 1977.     | 180. No. 137-Customs, dated the 15th July, 1978.      |
| 141. No. 200-Customs, dated the 24th September, 1977. | 181. No. 138-Customs, dated the 15th July, 1978.      |
| 142. No. 211-Customs, dated the 15th October, 1977.   | 182. No. 139-Customs, dated the 15th July, 1978.      |
| 143. No. 231-Customs, dated the 1st November, 1977.   | 183. No. 142-Customs, dated the 28th July, 1978.      |
| 144. No. 242-Customs, dated the 19th November, 1977.  | 184. No. 152-Customs dated the 9th August, 1978.      |
| 145. No. 245-Customs dated the 19th November, 1977.   | 185. No. 164 Customs, dated the 21st August, 1978.    |
| 146. No. 252-Customs, dated the 1st December, 1977.   | 186. No. 176-Customs, dated the 11th September, 1978. |
| 147. No. 253-Customs, dated the 13th December, 1977.  | 187. No. 184-Customs dated the 16th September, 1978.  |
| 148. No. 254-Customs dated the 13th December, 1977.   | 188. No. 195-Customs, dated the 3rd October, 1978.    |
| 149. No. 5-Customs, dated the 4th January, 1978.      | 189. No. 206-Customs, dated the 2nd November, 1978.   |

190. No. 209-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 191. No. 211-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 192. No. 217-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 193. No. 218-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 194. No. 219-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 195. No. 220-Customs, dated the 10th November, 1978.  
 196. No. 240-Customs, dated the 30th December, 1978.  
 197. No. 243-Customs, dated the 26th December, 1978.  
 198. No. 6-Customs, dated the 5th January, 1979.  
 199. No. 9-Customs, dated the 13th January, 1979.  
 200. No. 14-Customs, dated the 18th January, 1979.  
 201. No. 17-Customs, dated the 25th January, 1979.  
 202. No. 24-Customs, dated the 27th January, 1979.  
 203. No. 26-Customs, dated the 31st January, 1979.  
 204. No. 29-Customs, dated the 10th February, 1979.  
 205. No. 35-Customs, dated the 15th February, 1979.  
 206. No. 36-Customs, dated the 15th February, 1979.  
 207. No. 37-Customs, dated the 15th February, 1979.  
 208. No. 42-Customs, dated the 1st March, 1979.  
 209. No. 44-Customs, dated the 1st March, 1979.  
 210. No. 45-Customs, dated the 1st March, 1979.  
 211. No. 46-Customs, dated the 1st March, 1979.  
 212. No. 47-Customs, dated the 1st March, 1979.

[No. 53/F. No. Bud (Cus)/79]

सा० का० नि० 196 (अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० 37.01/08 की उप-शीर्ष सं० (3) के अन्तर्गत आने वाली उद्भासित सिनेमा फिल्मों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने सहायक सीमाशुल्क से, जितना केवल निम्नलिखित के द्योतक मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक है—

(क) सिनेमा फिल्म के प्रिंट की लागत ; और

(ख) ऐसे सिनेमा फिल्म के प्रिंट को बाबत उपगत भाड़ा तथा बीमे के प्रभार।

[सं० 54/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

**G.S.R. 196(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts every cinematograph film, exposed, falling under sub-heading No. (3) of Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill as is in excess of five per cent. of the value representing only —

(a) the cost of the print of the cinematograph film; and

(b) the freight and insurance charges incurred in respect of the print of such cinematograph film.

[No. 54/F. No. Bud, (Cus)/79]

सा० का० नि० 197(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट माल को जो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की उस शीर्ष सं० के अन्तर्गत आता है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस पर उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देनी है।

#### सारणी

| क्रम सं०    | सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० | माल का वर्णन  |
|-------------|---|---|
| 1           | 2   | 3   |
| 1. 15.07    |   | नारियल का तेल   |
| 2. 48.01/21 |   | स्टीरियो प्लॉग  |
| 3. 51.01/03 |   | पोलिएस्टर फिलामेंट स्ट्र, पोलिएस्टर मोनो-फिल और पोलिएस्टर स्ट्रिप |
| 4. 71.02(2) |   | कोरे हीरे   |
| 5. 82.06    |   | लेदर जैविंग मशीन (हाइड्रोलिक) के ब्लेड                            |

[सं० 55/का० सं० बजट (सीमा शुल्क)/79]

**G.S.R. 197(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table annexed hereto and falling under the Heading number of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill.

TABLE

| Serial No. | Heading No. in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 | Description of goods  |
|------------|---|---|
| 1          | 2   | 3   |
| 1.         | 15.07   | Coconut oil   |
| 2.         | 48.01/21  | Stereo flongs   |
| 3.         | 51.01/03  | Polyester filament yarn, polyester monofil and polyester strips |
| 4.         | 71.02(2)  | Rough diamonds  |
| 5.         | 82.06   | Blades for leather shaving machine (Hydraulic)                  |

[No. 55/F. No. Bud (Cus)/79]

सा० का० नि० 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4), जो खंड अन्तिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० 73.03/05 के अन्तर्गत आने वाले लोहे या इस्पात के गलन स्केप को, जब उसका इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि नमूबित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि आयात किए गए लोहे या इस्पात के गलन स्केप का वस्तुतः इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी में प्रयोग किया गया है।

[सं० 56/का० सं० बजट (सी० शु०) / 79]

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts melting scrap of iron or steel, falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in electric arc furnace, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable

thereon under sub-clause (1) of Clause 31 of the said Finance Bill :

Provided that the proper officer is satisfied that the imported melting scrap of iron or steel is in fact used in electric arc furnace.

[No. 56/F. No. Bud.(Cus.)/79]

सा० का० नि० 199(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4), जो खंड अन्तिम कर संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, डम्पर्स के संघटक पुर्जों को, जिनका शुद्ध भार (जिसके अन्तर्गत आयुष्मान नहीं है) आठ टन से अधिक है और जो बस टन या अधिक के आयुष्मान के लिए परिकल्पित है और जो राजमार्ग से भिन्न प्रयोग के लिए परिकल्पित है, जब उनका भारत में आयात किया जाए और जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर के समाधान-प्रथम रूप में यह साबित हो जाए कि वे डम्पर्स के विनिर्माण और संयोजन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं, उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की वषा में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य मामले में उद्योग मंत्रालय का तकनीकी विकास महानिदेशालय यह प्रमाणित कर देता है कि प्रश्नगत संघटक पुर्जे ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं या होंगे; और
- (2) आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह ऐसे संघटक पुर्जों की वास्तविकता जिनके बारे में सीमाशुल्क सहायक कलेक्टर के समाधान-प्रथम रूप में यह साबित नहीं होता है कि वे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए प्रयोग किए गए हैं, मांग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में ऐसे संघटक पुर्जों पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही सदत्त शुल्क के बीच में अन्तर के बराबर हो।

[सं० 57/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

G.S.R. 199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of dumpers of which the net weight (excluding payload) is more than eight tonnes and which is designed for a payload of ten tonnes or more and which is designed for use off the high way, when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be required for the purpose of the manufacture or assembly

of dumpers, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill, subject to the following conditions, namely :—

- (i) the Managing Director, Bharat Earth Movers Limited in the case of Bharat Earth Movers Limited, or the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industry in any other case, certifies that the component parts in question are or will be required for the purpose specified above, and
- (ii) the importer shall, by the execution of a bond in such form and for such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand in respect of such component parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such component parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 57/F. No. Bud.(Cus.)/79]

**सा० का० नि० 200 (अ).—**केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं० 71.02 (1) के अन्तर्गत आने वाले कोरे बिना कटे हुए रत्नों को, जब उनका भारत में आयात किया जाए उक्त विन विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्मन गहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[स० 58/का० सं० वज्र (सी० शु०)/79]

**G.S.R. 200(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts rough uncut precious stones, falling under Heading No. 71.02(1) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of November, 1979.

[No. 58/F. No. Bud.(Cus.)/79]

**सा० का० नि० 201 (अ).—**केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (1) जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारी कर्मणिय मोटर यानों मध्यम कर्मणियल मोटरयानों या हल्के कर्मणियल मोटरयानों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों और रबड़ के टायरों और रबड़ की ट्यूबों को, जहाँ किसी ऐसे मोटर यान का प्रयोग व्यक्तियों माल या सामग्री के अथवा ट्रैक्टरों के परिवहन के लिए किया जाता है वहाँ उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्मन गहायक सीमाशुल्क से इन शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है कि,—

- (1) इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट केवल उन्हीं संघटकों और रबड़ के टायरों और रबड़ की ट्यूबों को लागू होगी जो तकनीकी विकास महानिदेशक और भारी उद्योग विभाग द्वारा प्रमाणित सूचियों के अन्तर्गत आते हैं; और
- (2) आयातकर्ता संघटकों और रबड़ के टायरों और रबड़ की ट्यूबों की निकासी के समय सीमाशुल्क गहायक क्लिकटर के समक्ष यह ग्राह्य पेश करेंगे कि उनके पास व्यक्तियों माल और सामग्रियों के अथवा ट्रैक्टरों के परिवहन के लिए ऐसे मोटरयानों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय और तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित कार्यक्रम है।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[स० 59/का० सं० वज्र (सी० शु०)/79]

**G.S.R. 201(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the components and rubber tyres and rubber tubes required for the manufacture of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles of light commercial motor vehicles where any such motor vehicles are used for the transport of persons, goods or materials or of tractors, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill, subject to the conditions that,—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components and rubber tyres and rubber tubes which are covered by lists certified both by the Director General of Technical Development and the Department of Heavy Industry; and
- (ii) the importers shall produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components and rubber tyres and rubber tubes that they have a programme duly approved

by the Ministry of Industry and the Director General of Technical Development, for the manufacture of such motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1979.

[No. 59/F. No. Bud.(Cus.)/79]

सा० का० नि० 202 (अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त विधेयक, 1979 के खंड 31 के उपखंड (4) जो खंड अनन्तिम कर संधरण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं 28.01/58 के अन्तर्गत आने वाले भारी बिस्म के धोने के सोडा और हल्के बिस्म के धोने के सोडा को जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 31 के उपखंड (1) के अर्थात् उस पर उद्वेगवर्णीय गमम सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

2 यह अधिसूचना 30 जून, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 60/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 31 of the Finance Bill, 1979, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Soda ash of Jense variety and Soda ash of light variety, falling under Heading No. 28.08/58 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 31 of the said Finance Bill.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of June, 1979.

[No. 60/F. No. Bud.(Cus.)/79]

सा० का० नि० 203 (अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मान वर्ग, उक्त प्रथम अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्वेगवर्णीय सहायक सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 61/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

G.S.R. 203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all the goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 35 of the second mentioned Act.

[No. 61/F. No. Bud.(Cus.)/79]

सा० का० नि० 204 (अ).—केन्द्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 35 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 94-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
2. सं० 95-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
3. सं० 96-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
4. सं० 97-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
5. सं० 98-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
6. सं० 99-सीमाशुल्क, तारीख 12 मई, 1978
7. सं० 119-सीमाशुल्क, तारीख 9 जून, 1978
8. सं० 230-सीमाशुल्क तारीख 29 नवम्बर, 1978
9. सं० 247-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1978
10. सं० 5-सीमाशुल्क, तारीख 4 जनवरी, 1979
11. सं० 40-सीमाशुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1979

[सं० 62/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

G.S.R. 204(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. No. 94-Customs, dated the 12th May, 1978.
2. No. 95-Customs, dated the 12th May, 1978.
3. No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978.
4. No. 97-Customs, dated the 12th May, 1978.

5. No. 98-Customs, dated the 12th May, 1978.
6. No. 99-Customs, dated the 12th May, 1978.
7. No. 119-Customs, dated the 9th June, 1978.
8. No. 230-Customs, dated the 29th November, 1978.
9. No. 247-Customs, dated the 30th December, 1978.
10. No. 5-Customs, dated the 4th January, 1979.
11. No. 40 Customs, dated the 15th February, 1979.

[No. 62/F. No. Bud.(Cus.)/79]

सा० का० वि० 205 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विरुद्धित करती है, अर्थात्:—

1. अधिसूचना सं० 127-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
2. अधिसूचना सं० 139-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
3. अधिसूचना सं० 364-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976
4. अधिसूचना सं० 103-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977
5. अधिसूचना सं० 126-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977

6. अधिसूचना सं० 129-सीमाशुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1977

[सं० 63/का० सं० बजट (सी० शु०)/79]

जॉसेफ डोमिनिक, अवर सचिव

**G.S.R. 205(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, namely:—

1. Notification No. 127-Customs, dated the 2nd August, 1976.
2. Notification No. 139-Customs, dated the 2nd August, 1976.
3. Notification No. 364-Customs, dated the 2nd August, 1976.
4. Notification No. 103-Customs, dated the 1st July, 1977.
5. Notification No. 126-Customs, dated the 1st July, 1977.
6. Notification No. 129-Customs, dated the 1st July, 1977.

[No. 63/F. No. Bud.(Cus.)/79]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.